



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8—जनवरी 14, 2011 (पौष 18, 1932)  
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8—JANUARY 14, 2011 (PAUSA, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2010

सं. 724, दिनांक 2 दिसम्बर 2010—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस-1 (यू) तथा दिनांक 01.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अंतर्गत उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

अधिकारी का नाम	रक्षा मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	ग्रेड-1 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के रूप में पदोन्नति	मंत्रालय/विभाग की नफरी में शामिल
श्री राजीव जौहरी (सीएसएल सं. 6529)	02.06.2010 (पूर्वाह)	26.05.2010 (पूर्वाह)	औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग
श्री एस. के. मलिक (सीएसएल सं. 6587)	08.06.2010 (पूर्वाह)	26.05.2010 (पूर्वाह)	दूरसंचार विभाग
श्री आर. के. वर्मा (सीएसएल सं. 6584)	08.06.2010 (पूर्वाह)	26.05.2010 (पूर्वाह)	एल एवं डी ओ शहरी विकास मंत्रालय

उपर्युक्त अधिकारियों की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

तदर्थ पदोन्नति से अवर सचिव ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या इस ग्रेड की नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड-1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित श्री पी. आर. शर्मा बनाम संघ सरकार के नाम से मूल आवेदन सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भंडारी बनाम संघ सरकार और अन्यो के नाम से मूल आवेदन सं. 2674/2009 के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

यह अधिसूचना उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्ति से संबंधित मंत्रालय की अधिसूचना सं. ए-19014/8/2010-रक्षा(स्था.-1/गुप-1) दिनांक 15.6.2010, सं. ए-19014/11/2010-रक्षा(स्था.-1/गुप-1) दिनांक 15.6.2010 और सं. ए-19014/12/2010-रक्षा(स्था.-1/गुप-1) दिनांक 15.6.2010 का अधिक्रमण करती है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायक, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न हैं का नाम वर्ष 2008 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में वरिष्ठता कोटा में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें इसी मंत्रालय में 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए में अगले आदेश जारी होने तक नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :-

श्री के सी थोमस  
श्री एस के मल्होत्रा  
श्री रमेश गोयल  
श्री कुमार प्रणव  
श्री सुरेन्द्र कुमार  
श्री रतन सिंह

चयन सूची 2008 (एस क्यू) में अधिकारियों की नियुक्ति को सैद्धांतिक आधार पर वेतन निर्धारण के लिए 01 जुलाई, 2008 से प्रभावी माना गया है। तथापि, वास्तविक लाभ उस तारीख से उपलब्ध होंगे जिस तारीख से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अधिकारी नियुक्त हुए और उस पद पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला।

उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामला सं. 13245-60/2005 और श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित मामला सं. ओ ए 1083/2007 और एम. ए. सं. 1171/2007, दिल्ली उच्च न्यायालय में सी डब्ल्यू पी सं. 13352/2005, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में ओ ए सं. 3294/2009 और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में ओ ए सं. 2674/2009 के परिणाम के अध्यधीन है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री डी. एस. पठानिया, जोकि इस समय रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, का नाम वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता कोटा की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 सितम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/25/2004-सी एस-1 (एस) के तहत दिए गए परामर्श के अनुसार अगले आदेश जारी होने तक दिनांक 01 जुलाई 2003 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के मुरली  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 725, दिनांक 02 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्तियां करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी आयोग

(ले के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2009 से)

अभिषेख आनन्द (आईसी-71731एक्स) एविएशन ज्येष्ठता लालदिनपुइया (आईसी-71730पी) इन्फैन्ट्री के नीचे और रचित कुमार

(आईसी-72034के) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता प्रशांत त्रिपाठी (आईसी-72033एफ) आर्टी जिनका नाम भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में दिनांक 31 जुलाई 2010 को प्रकाशित किया गया है।

(अल्प सेवा आयोग)

ले के पद पर

निम्नलिखित 138 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-88 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 19 सितम्बर 2009 को शुरू हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 19 सितम्बर 2009 से 10 वर्ष के लिए ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए] प्रदान किया जाता है :-

एसएस नं., नाम एवं आर्म/सर्विस

एसएस-43618एम, प्रकाश सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43620के, सुलतान सिंह जाट, एविएशन  
एसएस-43622पी, चतुर प्रशांत आत्माराम, इंजीनियर्स  
एसएस-43623एक्स, लाईसराम टोनी सिंह, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43624ए, थानिन बाइटे, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43625एच, विनय पराशर, आर्टी  
एसएस-43626एल, साहिल थामस पुनेन, एसी  
एसएस-43629वाई, प्रदीप कुमार, आर्टी  
एसएस-43630एन, गितिका गोस्वामी, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43631डब्ल्यू, जिगमेत सिंगे, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43632वाई, विकास राघव, आर्टी  
एसएस-43633एफ, दीपू सिंह, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43634के, विक्रम सिंह, एएससी  
एसएस-43635एम, मनोज कुमार, एओसी  
एसएस-43636पी, नवीन अहलावत, एविएशन  
एसएस-43638ए, ढोक अभिषेक विजय, एएडी  
एसएस-43639एच, दीपक सिंह मनहास, आर्टी  
एसएस-43640एक्स, आयुष कुलश्रेष्ठ, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43641ए, मयूर जम्वाल, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43642एच, अभिषेक सलारिया, आर्टी  
एसएस-43643एल, वड्डी राजेश रामकृष्णा, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43644एन, प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री  
एसएस-43645डब्ल्यू, योगेश कुमार अहलावत, आर्टी  
एसएस-43646वाई, भगवती सिंह राठौड, एओसी  
एसएस-43648के, संजय कुमार सिंह, एसी

एसएस-43649एम, करन विजय सिंह शेखावत, एओसी  
 एसएस-43650एफ, रजनीश कुमार शर्मा, ईएमई  
 एसएस-43652एम, अमित त्रिखा, मैक  
 एसएस-43653पी, बिकाश थापा, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43654एक्स, अमृत पाल सिंह भुल्लर, एसी  
 एसएस-43655ए, रजत शिखर जोशी, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43656एच, प्रवीण कुमार, एओसी  
 एसएस-43657एल, खेरडे आशिष सुरेशराव, एएडी  
 एसएस-43658एन, विवेक टन्डन, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43659डब्ल्यू, दिनेश कुमार, एएससी  
 एसएस-43660एल, रिजवान, मैक  
 एसएस-43661एन, राजेश रोशन वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43662डब्ल्यू, रेजिन सी, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43663वाई, संग्राम सिंह रावल, एविएशन  
 एसएस-43664एफ, लवदीप सिंह भुल्लर, एसी  
 एसएस-43665के, रोहित कुमार, एएससी  
 एसएस-43666एम, विनीत फौगाट, मैक  
 एसएस-43667पी, उत्कर्ष शर्मा, इंजीनियर्स  
 एसएस-43668एक्स, राज कुमार यादव, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43669ए, जोय गुप्तन, आर्टी  
 एसएस-43670पी, नवीन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43671एक्स, अजय कुमार, इंजीनियर्स  
 एसएस-43672ए, मान राजेश कुमार रामजीलाल, आर्टी  
 एसएस-43675एन, विश्वजीत बरिंक, एएडी  
 एसएस-43676डब्ल्यू, रंजीत पाण्डेय, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43677वाई, जयपाल सिंह चाडक, इंजीनियर्स  
 एसएस-43678एफ, आशीष कुमार भट्टाचार्य, सिग्नल  
 एसएस-43679के, अनिल कुमार, एएडी  
 एसएस-43680वाई, विवेक आनंद, इन्ट  
 एसएस-43681एफ, शंकर सिंह नेगी, आर्टी  
 एसएस-43682के, गौरव अत्री, आर्टी  
 एसएस-43683एम, सुनील पहल, आर्टी  
 एसएस-43684पी, जसकरन सिंह, एसी  
 एसएस-43685एक्स, अजय शर्मा, सिग्नल  
 एसएस-43686ए, सिद्धार्थ विश्वनाथन, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43687एच, ज्योति प्रकाश साहू, इंजीनियर्स  
 एसएस-43688एल, मोहित सिंह, आर्टी  
 एसएस-43690एच, जठार निलकंठ बालासाहेब, इन्फैन्ट्री

एसएस-43692एन, मेनन प्रविण कुन्हीकनन, इंजीनियर्स  
 एसएस-43693डब्ल्यू, मनोज सिंह रौतेला, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43694वाई, नीरज खत्री, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43695एफ, उज्जवल सिंह बघेल, आर्टी  
 एसएस-43696के, सत्चित दीक्षित, आर्टी  
 एसएस-43697एम, अरुणदेव सिंह पवार, आर्टी  
 एसएस-43699एक्स, जाधव अभिनित उज्जवलसिंह, आर्टी  
 एसएस-43701के, अभिषेक जोशी, आर्टी  
 एसएस-43702 एम, राजावेलु, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43704 एक्स, बिनेश कुमार सिंह, सिग्नल  
 एसएस-43705ए, गुरप्रीत सिंह, आर्टी  
 एसएस-43706एच, यशबीर सिंह पवार, सिग्नल  
 एसएस-43708एन, वरुण सांगर, एएससी  
 एसएस-43709डब्ल्यू, एमडी मूनिर अहमद, आर्टी  
 एसएस-43710एल, यशवन्त सिंह जादौन, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43711एन, कौशिक एस, एविएशन  
 एसएस-43712डब्ल्यू, विवेक चौधरी, ईएमई  
 एसएस-43713वाई, मोहित गुलिया, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43714एफ, डी शिव शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43715के, अजय कुमार, ईएमई  
 एसएस-43716एम, सोहलदीप सिंह, ईएमई  
 एसएस-43717पी, कोनजबम जयचन्द्रा मीतै, आर्टी  
 एसएस-43718एक्स, निखिल अरोड़ा, मैक  
 एसएस-43719ए, विश्वेश श्रीधर, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43720पी, लाईनलैक्पम रेमबो सिंह, एएससी  
 एसएस-43721एक्स, अजय सिंह, इन्ट  
 एसएस-43722ए, गौरव कुमार गौतम, सिग्नल  
 एसएस-43723एच, शमशेर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43725एन, अमन इंदर सिंह रियाड, आर्टी  
 एसएस-43726डब्ल्यू, हीरा ठाकुर, आर्टी  
 एसएस-43728एफ, दुष्यंत सिंह, आर्टी  
 एसएस-43729के, श्रीनाथ शुक्ला, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43730वाई, गजेन्द्र पाटिल, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43731एफ, अभिनव जौली, आर्टी

एसएस-43732के, विवेक सिंह, एओसी  
 एसएस-43733एम, संतोष नारायणन मणि, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43735एक्स, स्वपनेष सुर्यकांत कोली, इंजीनियर्स  
 एसएस-43736ए, सुधीर कुमार, एसी  
 एसएस-43737एच, विवेक एस नायर, एविएशन  
 एसएस-43738एल, अनुराग मिश्रा, आर्टी  
 एसएस-43739एन, एन यानरेनथंग यानथन, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43740एच, राकेश दलाल, एएडी  
 एसएस-43741एल, राणा शिवम सिंह, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43742एन, समीर अनुराग, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43743डब्ल्यू, आशिष चौबे, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43744वाई, कुलजीत सिंह, एसी  
 एसएस-43745एफ, पवन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43749एक्स, परमवीर खत्री, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43750एम, अजय कुमार कौशिक, एएडी  
 एसएस-43751पी, आशीष पहल, आर्टी  
 एसएस-43752एक्स, निखिल बस्नेत, एविएशन  
 एसएस-43753ए, अमित कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43754एच, सौरभ दुबे, एएससी  
 एसएस-43755एल, विजय तोमर, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43756एन, पुनीत शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43757डब्ल्यू, अंकित बक्शी, मैक  
 एसएस-43758वाई, एस वेकंट कृष्णन, मैक  
 एसएस-43759एफ, ढाका नवीन कुमार, आर्टी  
 एसएस-43760डब्ल्यू, अभिषेक कुमार सिंह, एओसी  
 एसएस-43761वाई, टोकीवी, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43763के, सुखविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43764एम, गौरव मनकोटिया, आर्टी  
 एसएस-43765पी, इमरोज संधू, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43766एक्स, अभिषेक, एओसी  
 एसएस-43768एच, जगन नाथ मिश्रा, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43769एल, सौवीक सन्तरा, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43770ए, मिश्रा अनूपकुमार रमेश, इंजीनियर्स  
 एसएस-43771एच, जसजीत सिंह बाजवा, आर्टी

एसएस-43773एन, श्रीजित सी जी, सिग्नल  
 एसएस-43774डब्ल्यू, पुंडे यशदीप दिपक, आर्टी  
 एसएस-43775वाई, सुरेन्द्र सिंह, एसी  
 एसएस-43776एफ, जय प्रकाश मिश्रा, एओसी  
 एसएस-43777के, अचल रवि गलेडसन खालखो, इन्फैन्ट्री  
 एसएस-43778एम, सूरज सिंह, एएससी  
 एसएस-43779पी, अमन सिंह, एसी

निम्नलिखित छ : महिला अधिकारियों को जो एस एस सी डब्ल्यू (टेक)-03 पाठ्यक्रम की हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के अंतर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्रसंख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए] ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 20 मार्च 2010 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 22 मार्च 2008 से सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9, दिनांक 01 जून 1996) के अंतर्गत तकनीकी योग्यता हेतु दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिए दी जाती है :-

एसएस नं. नाम एवं आर्म/सर्विस  
 एसएस-43938एफ, ज्योति खण्डूरी, सिग्नल  
 एसएस-43940वाई, जिन्जी जोसफ, ईएमई  
 एसएस-43941एफ, निधि धानिया, ईएमई  
 एसएस-43943एम, दिव्या पुरी, सिग्नल  
 एसएस-43945एक्स, संध्या नायर, सिग्नल

निम्नलिखित अधिकारी ने अल्प सेवा आयोग छ: मास का समय जो कि 21 मार्च 2009 से आरम्भ हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 21 मार्च 2009 से 10 वर्ष के लिए ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अंतर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए] प्रदान किया जाता है।

इन्दर कुमार गुक्लिंग (एसएस-43371डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री निदिष्टता ज्येष्ठता ले गगन दीप सिंह (एसएस-43368डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री, दीपक चन्द्र गनोला (एसएस-43380एक्स), इन्फैन्ट्री निदिष्टता ज्येष्ठता ले जब्बर जंग सिंह कंग (एसएस-43379एच), इन्फैन्ट्री, अमित दुबे (एसएस-43401एच), इन्फैन्ट्री निदिष्टता ज्येष्ठता ले राहुल ब्यौत्रा (एसएस-43400ए), सिग्नल, वॉकहॉग डेविट थोटंगम (एसएस-43440एफ), इन्फैन्ट्री निदिष्टता ज्येष्ठता ले सन्नी विवेक (एसएस-43439एम), इन्फैन्ट्री और भुवन शाह (एसएस-43467वाई), मैक निदिष्टता ज्येष्ठता ले गौरव सिंह तेवतिया (एसएस-43466डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र में दिनांक 20 फरवरी 2010 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

निम्नलिखित 81 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-89 पाठ्यक्रम के हैं, ने छ: मास का समय जो कि 20 मार्च, 2010 को शुरू हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 20 मार्च, 2010 से

10 वर्ष के लिए ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अंतर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी(ए जी) दिनांक 20 जुलाई, 2006 के साथ पढ़ा जाए] प्रदान किया जाता है :-

एसएस नं., नाम एवं आर्म/सर्विस

(एसएस-43828एम) बिक्रमजीत, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43829पी) पंकज कुमार यादव, एविएशन  
 (एसएस-43830के) पंकल बलौरिया, एसी  
 (एसएस-43831एम) वरिन्दर सिंह, एओसी  
 (एसएस-43833एक्स) पीयूष कुमार पाण्डेय, मेक  
 (एसएस-43835एच) टेरेन्स गोनसालवस, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43837एन) मुनीष वर्मा, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43838डब्ल्यू) मोहनाप्रियन टी, आर्टी  
 (एसएस-43839वाई) पारस सामन्त, आर्टी  
 (एसएस-43840एन) सुभाष चन्द, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43831डब्ल्यू) मधुर उपाध्याय, इंजीनियर्स  
 (एसएस-43847एक्स) परमजीत सिंह, ईएमई  
 (एसएस-43848ए), आतिश कुमार, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43852एच) एम ई श्रीनिधी, आर्टी  
 (एसएस-43853एल) आकाश शर्मा, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43854एन) जयकृष्णा एस, आर्टी  
 (एसएस-43856वाई) पानमै कबोफुन, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43858के) वीरेन्द्र सिंह नाथावत, एसी  
 (एसएस-43860एफ) जगन्नाथ पौड्याल, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43862एम) षमीर एम एस, सिग्नल  
 (एसएस-43863पी) अभिनव कुमार, एएडी  
 (एसएस-43864एक्स) अर्चित वर्डिया, आर्टी  
 (एसएस-43866एच) शिवेन्द्र मणि त्रिपाठी, एओसी  
 (एसएस-43867एल) करण सिंह चिब, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43868एन) सचिन दिलीप पवार, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43869डब्ल्यू) विंकल पराशर, आर्टी  
 (एसएस-43871एन) संदीप कुमार, इंजीनियर्स  
 (एसएस-43873वाई) निलेश सुर्यवंशी, इंजीनियर्स  
 (एसएस-43874एफ) के पी रजिल प्रेमराजन, ईएमई  
 (एसएस-43877पी) नितिन शर्मा, आर्टी  
 (एसएस-43878एक्स) रमनदीप सिंह धन्जल, इन्फैंट्री

(एसएस-43879ए) ठाकुर नितिनकिशोर, एविएशन  
 (एसएस-43880पी) कुनाल ए सेठी, एसी  
 (एसएस-43881एक्स) मिथिलेश कुमार उपाध्याय, एएससी  
 (एसएस-43882ए) सच्चिदानन्द द्विवेदी, एएडी  
 (एसएस-43885एन) हरिनाम सिंह, एएससी  
 (एसएस-43888एफ) विश्व दीप सिंह, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43889के) जय दत्त भट्ट, आर्टी  
 (एसएस-43890वाई) अरूण राजन, आर्टी  
 (एसएस-43891एफ) विन्सेट वी खियांगटे, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43892के) अतुल शर्मा, इन्ट  
 (एसएस-43893एम) अनुप कुमार छैत्री, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43894पी) प्रदीप कुमार, ईएमई  
 (एसएस-43896ए) गंगाधर साई के, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43897एच) मुकेश कुमार, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43898एल) गौरव चमोली, ईएमई  
 (एसएस-43899एन) कमलजीत सिंह, आर्टी  
 (एसएस-43901ए) अंशुल बिष्ट, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43902एच) अभिजीत सिंह राठौड, आर्टी  
 (एसएस-43903एल) पाटिल प्रहलाद, आर्टी  
 (एसएस-43904एन) अल्पेश सिंह, एविएशन  
 (एसएस-43907एफ) विकास पाण्डेय, एविएशन  
 (एसएस-43908के) पंकज सिंह, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43910एफ) ईश्वर पाल, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43911के) रविन्द्र सिंह शेखावत, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43912एम) प्रदीप शर्मा, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43914एक्स) अमन राठौर, सिग्नल  
 (एसएस-43915ए) वसीम फिरोज, आर्टी  
 (एसएस-43916एच) सन्नी कुमार सैगरिया, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43917एल) अनुज कुमार, एएससी  
 (एसएस-43919डब्ल्यू) आशीष चौहान, आर्टी  
 (एसएस-43920एल) दिवेश खनका, इन्फैंट्री  
 (एसएस-43921एन) विशन प्रताप सिंह भदौरिया, एसी  
 (एसएस-43922डब्ल्यू) विक्रान्त राजे भोंसले एसी  
 (एसएस-43923वाई) कुलकर्णी अक्षय निशीकांत, ईएमई  
 (एसएस-43925के) रवि दत्त यादव, इन्फैंट्री

(एसएस-43926एम) अर्जुन विसवेस्वरणराम, इन्फैंट्री

(एसएस-43929ए) वरूण सिंह, इन्फैंट्री

(एसएस-43931एक्स) अंकुर पाल, इन्फैंट्री

(एसएस-43932ए) विजय कुमार शर्मा, इंजीनियर्स

(एसएस-43935एन) गगनदीप सिंह, एओसी

(एसएस-43937वाई) अजय उपाध्याय, इंजीनियर्स

(एसएस-43927पी) अन्जू बाला, एओसी

(एसएस-43928एक्स) ऋतु थपलियाल, ईएमई

(एसएस-43933एच) शिवानी सिंह, आईसी

राहुल शर्मा

ले कर्नल

सहायक सेना सचिव 8बी

निम्नलिखित महिला अधिकारियों, जो एसएससी डब्ल्यू (एन टी)-01 कोर्स की हैं, ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि 21 मार्च, 2009 से आरंभ हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि दिनांक 21 मार्च, 2009 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई, 2006 के साथ पढ़ा जाए] ले के पद पर 10 वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है।

धारणा शुक्ला (एसएस 43369वाई), एससी निर्दिष्टता ज्येष्ठता लै. दीपिका चतुर्वेदी (एसएस 43366एल), एससी और अदिति सक्सेना (एसएस 43446एच), एससी निर्दिष्टता ज्येष्ठता ले निकिता अनल (एसएस 43433पी), एससी जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2010 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

निम्नलिखित 20 महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन)का छः माह का समय जो कि दिनांक 20 मार्च, 2010 से आरंभ हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि दिनांक 20 मार्च, 2010 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/एजी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए] ले के पद पर 10 वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है:--

डब्ल्यू एस नं. नाम, आर्म/सर्विस

(एसएस-43832पी) अम्बिका जोधा, एएडी

(एसएस-43834ए) स्वर्णिमा थपलियाल, ईएमई

(एसएस-43843एफ) आकांक्षा मिश्रा, इन्ट

(एसएस-43844के) मानिका जोर्ज, एओसी

(एसएस-43846पी) सविता गढवाल, एविएशन

(एसएस-43855डब्ल्यू) शिपाली शाही, एससी

(एसएस-43857एफ) दीप्ति पाण्डे, एससी

(एसएस-43865ए) मोनिका मल, एससी

(एसएस-43872डब्ल्यू) स्नेहा गुरूंग, एओसी

(एसएस-43886डब्ल्यू) निधि, एससी

(एसएस-43900एक्स) कृतिका कनवाल, एससी

(एसएस-43906वाई) श्रुती कीर्ति राघव, एससी

(एसएस-43909एम) नीति सी जे, इन्ट

(एसएस-43924एफ) मर्सी किम्पुई, एओसी

वायु शाखा

सं. 726, दिनांक 2 दिसम्बर 2010--माननीय राष्ट्रपति महोदय नीचे वर्णित अफसरों की सेवा को स्थायी कर उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा:--

भारतीय वायु सेना

फ्लाईंग (पायलट) शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रभाश मिश्रा (29917) एफ (पी), सुमित शेखर (29933) एफ (पी), देव भुशन पाण्डेय (29950) एफ (पी)-- 21 जून 2008 से प्रभावी

वी एम मारडीकर

विंग कमांडर

जे डी पी ओ-3 (डी)

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 727, दिनांक 3 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

कर्नल से ब्रिगे

पद और नाम (व्यक्तिगत संख्या), पदोन्नति की तारीख

ब्रिगे देविन्दर कौर (एनआर-15865के), 10 जून 2010

ले कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम (व्यक्तिगत संख्या), पदोन्नति की तारीख

कर्नल रोसली मैथ्यू (एनआर-16833एन), 01 सितम्बर 2009

कर्नल के एम ओमना (एनआर-16882डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

कर्नल पद्मिनी मोहन (एनआर-16940पी), 01 मई 2010

कर्नल निर्मल कपिल बाटा (एनआर-16151एच), 15 मई 2009

कर्नल जी पी रानी (एनआर-16929एम), 01 जुलाई 2010

ले कर्नल (टीएस) से ले कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम (व्यक्तिगत संख्या), पदोन्नति की तारीख

ले कर्नल एम मैथ्यू (एनआर-17674एन), 01 दिसम्बर 2009

ले कर्नल पी जॉर्ज ट्रेस (एनआर-17203ए), 03 अगस्त 2009

ले कर्नल ललिता कुमारी वी के (एनआर-17627डब्ल्यू), 03 अगस्त 2009

मेजर से ले कर्नल

ले कर्नल लता मंडल (एनआर-19875एल), 09 जून 2009

ले कर्नल एलसम्मा जॉन (एनआर-19876एन), 09 जून 2009

ले कर्नल अनिता शर्मा (एनआर-19880डब्ल्यू), 09 जून 2009

ले कर्नल मौली एम एल (एनआर-19881वाई), 09 जून 2009

ले कर्नल सुनीता विजयन (एनआर-19886एक्स), 09 जून 2009

ले कर्नल सुमा कुमारी (एनआर-19887ए), 09 जून 2009

ले कर्नल करमजीत कौर (एनआर-19889एल), 09 जून 2009

ले कर्नल सरोजा कुमारी (एनआर-19890ए), 09 जून 2009

ले कर्नल एनसम्मा पी डी (एनआर-19894डब्ल्यू), 09 जून 2009

ले कर्नल एलिजाबेथ वर्गिस (एनआर-19896एफ), 09 जून 2009

मेजर से ले कर्नल (टीएस)

ले कर्नल सेलिन्मा थॉमस (एनआर-18974एफ), 20 दिसम्बर 2006

ले कर्नल लूसी मैथ्यू (एनआर-18978एक्स), 10 जनवरी 2007

ले से कैप्टन

पद और नाम (व्यक्तिगत संख्या), पदोन्नति की तारीख

कैप्टन रीतु धीमन (एनआर-21063डब्ल्यू), 07 जून 2005

कैप्टन विकी दलाल (एनआर-21065एफ), 07 जून 2005

कैप्टन अर्चना रॉय (एनआर-21067एम), 07 जून 2005

कैप्टन प्रभा शुक्ला (एनआर-21071पी), 07 जून 2005

कैप्टन स्निग्धा प्रमानिक (एनआर-21080डब्ल्यू), 07 जून 2005

कैप्टन दीपा महर (एनआर-21081वाई), 07 जून 2005

कैप्टन प्रिया नायर (एनआर-21082एफ), 07 जून 2005

कैप्टन ज्योति सुखपाल (एनआर-21086एक्स), 07 जून 2005

कैप्टन लिट्टी सबास्टियन (एनआर-21089एल), 07 जून 2005

कैप्टन जैन्सी रानी ए (एनआर-21129एफ), 23 नवम्बर 2006

कैप्टन स्मिता रामाचन्द्रन (एनआर-21139एल), 23 नवम्बर 2006

कैप्टन एस सेल्वारानी (एनआर-21150के), 23 नवम्बर 2006

कैप्टन पी रंजीता देवी (एनआर-21155एच), 23 नवम्बर 2006

कैप्टन अनुपमा चौधरी (एनआर-21160एन), 23 नवम्बर 2006

कैप्टन आर रामालक्ष्मी (एनआर-21165एम), 02 दिसम्बर 2006

जे के प्रैवाल

मेजर जनरल

अति. महानिदेशक, एमएनएस

-----

सं. 728, दिनांक 3 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले कर्नल बनाया जाता है

मेजर एच एस भामरा (टीए-42284), इंजीनियर (टीए), 21 अगस्त 2010

मेजर ए के सिंह (टीए-42285), इंजीनियर (टीए), 25 अगस्त 2010

जय राज

अवर सचिव

-----

थल सेना शाखा

सं. 729, दिनांक 3 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

ले कर्नल वी पी सिंह (एमआर-5213एक्स), 15 मई 2010

ले कर्नल सुमन देवड़ा (एमआर-5413एन), 30 मई 2010

ले कर्नल गंगा शरण (एमआर-5281एल), 01 जून 2010

ले कर्नल आर के भाटिया (एमआर-5210के), 05 जून 2010

ले कर्नल एम एल अग्रवाल (एमआर-5275एक्स), 10 जून 2010

ले कर्नल वसन्था कुमार के (एमआर-5887पी), 25 जून 2010

ले कर्नल पी के तिवारी (एमआर-5262ए), 30 जून 2010

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सं. 730, दिनांक 6 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
मेजर से ले कर्नल

आई सी सं., नाम तथा आर्म  
(आईसी-48697) राजेश यादव, सिग्नल्स

--16 दिसम्बर 2004--

राहुल शर्मा  
ले कर्नल  
एएमएस-8बी

-----  
स्थायी आर्मी  
मिलिट्री नर्सिंग सेवा  
स्थायी कमीशन

सं. 731, दिनांक 6 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

कैप्टन से मेजर

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. तथा पदोन्नति की तारीख

मेजर सेलिन्मा थॉमस (एनआर-18974एफ), 20 दिसम्बर 1999

मेजर लूसी मैथ्यू (एनआर-18978एक्स), 10 जनवरी 2000

(कमीशन तिथि 19 दिसम्बर 1986, 22 दिन की अनुपस्थिति 27 अप्रैल 1998 से 18 मई 1998 बिना वेतनमान के द्वारा नियमित की गयी।

जे के प्रैवाल  
मेजर जनरल  
अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

-----  
सेना शाखा

सं. 732, दिनांक 6 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारियों की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
मेजर के पद पर

संदीप राणा (एमएस-15387एल) (एमआर-08969एच), एएमसी,  
22 सितम्बर 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अप्रैल 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से रद्द किया जाता है)

ऋषि शर्मा (एमएस-14864पी) (एमआर-08970एक्स), एएमसी,  
09 अगस्त 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से रद्द किया जाता है)

रूपसिंह परमार (एमएस-15117डब्ल्यू) (एमआर-08971ए),  
एएमसी, 16 दिसम्बर 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 21 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से रद्द किया जाता है)

ऐजाज अहमद (एमआर-08789ए), एएमसी, 16 जून 2009

कप्तान के पद पर

ऋषि शर्मा (एमएस-14864पी) (एमआर-08970एक्स), एएमसी,  
09 अगस्त 2005, इन्टर्नशिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से रद्द किया जाता है)

शैलेन्द्रा प्रताप सिंह (एमआर-08857एच), एएमसी, 11 फरवरी  
2010

सकिब यासीन (एमआर-08867एम), एएमसी, 11 फरवरी 2010

रंकीन राज (एमआर-08869एक्स), एएमसी, 11 फरवरी 2010

अंशुमान सिंह (एमआर-08889एल), एएमसी, 11 फरवरी 2010

सर्जन ले कमान्डर के पद पर

मनीष (एमएस-14895पी) (एमआर-08967एक्स), (75863आर),  
एएमसी, 05 अक्टूबर 2005,

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से रद्द किया जाता है)

सर्जन ले के पद पर

संजय पुरी (एमआर-08598एल) (75958एफ), एएमसी, 28 जून  
2008

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

-----  
थल सेना शाखा

सं. 733, दिनांक 7 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी नायब सूबेदार (फार्मासिस्ट)

हवलदार एम मनीवासगन (सं. 13976186वाई अब जेसी-697396एन),  
20 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)



हवलदार आर अरुमुगम (सं. 13975682एन अब जेसी-696941ए),  
01 जून 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मुकेश चन्द्र बैग (सं. 13976758पी अब जेसी-697319वाई),  
24 नवम्बर 2009

हवलदार शिव देव सिंह (सं. 13978055एम अब जेसी-696972ए),  
01 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सजीन्द्रन के ए (सं. 13979899पी अब जेसी-697026एन),  
05 सितम्बर 2009

हवलदार सनिल कुमार एस (सं. 13977210डब्ल्यू अब जेसी-  
697027डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2009

हवलदार सन्तोष कुमार आर (सं. 13977877एक्स अब जेसी-  
697024एच), 01 सितम्बर 2009

हवलदार जी एच मो. भट्ट (सं. 13977315ए अब जेसी-697075डब्ल्यू),  
04 सितम्बर 2009

हवलदार सुन्दरम नायक (सं. 13979927डब्ल्यू अब जेसी-  
697025एल), 01 सितम्बर 2009

हवलदार राम करन (सं. 13980005ए अब जेसी-697028वाई),  
07 सितम्बर 2009

हवलदार मचैह एम ए (सं. 13978418एल अब जेसी-697076वाई),  
19 अक्टूबर 2009

हवलदार महेश सिंह (सं. 13980382डब्ल्यू अब जेसी-697173डब्ल्यू),  
03 नवम्बर 2009

हवलदार विजय शंकर तिवारी (सं. 13980433वाई अब जेसी-  
697077एफ), 15 अक्टूबर 2009

#### स्थायी नायब सूबेदार (फार्मासिस्ट)

हवलदार एम वेंकटेश्वर रेड्डी (सं. 13979985ए अब जेसी-  
697174वाई), 29 अक्टूबर 2009

हवलदार टी अजमल अली खान (सं. 13965108एफ अब जेसी-  
697059वाई), 20 अक्टूबर 2009

हवलदार सुभाष सिंह यादव (सं. 13976101एक्स अब जेसी-  
697175एफ), 12 नवम्बर 2009

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13976262ए अब जेसी-697176के),  
30 अक्टूबर 2009

हवलदार सुनील कुमार लाल दास (सं. 13976828एच अब जेसी-  
697177एम), 31 अक्टूबर 2009

हवलदार अर पित्तर्चई मुथु (सं. 13980012डब्ल्यू अब जेसी-  
697246एक्स), 26 नवम्बर 2009

हवलदार परमजीत धीमान (सं. 13980428एन अब जेसी-697078के),  
12 अक्टूबर 2009

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13980428एक्स अब जेसी-697139डब्ल्यू),  
28 अक्टूबर 2009

हवलदार बाल मुकुन्द उपाध्याय (सं. 13971999एल अब जेसी-  
697178पी), 31 अक्टूबर 2009

हवलदार अशोक कुमार दास (सं. 13976879डब्ल्यू अब जेसी-  
697179एक्स), 23 नवम्बर 2009

हवलदार मेस्त्री शंकर मधुकर (सं. 13980475एल अब जेसी-  
697247ए), 23 नवम्बर 2009

हवलदार जय राम कुमावत (सं. 13980512एन अब जेसी-  
697079एम), 12 अक्टूबर 2009

हवलदार रंजीत लाल जाट (सं. 13980514वाई अब जेसी-697180एम),  
07 नवम्बर 2009

हवलदार परमानन्द कुमार (सं. 13980535पी अब जेसी-697325एम),  
17 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार लालन कुमार ठाकुर (सं. 13980586एच अब जेसी-  
697181पी), 28 अक्टूबर 2009

हवलदार ओमपाल सिंह पूनिया (सं. 13980588एन अब जेसी-  
697182एक्स), 18 नवम्बर 2009

हवलदार अनिल कुमार (सं. 13980591एन अब जेसी-697183ए),  
04 नवम्बर 2009

हवलदार सालुंके रामचन्द्र एकनाथ (सं. 13980864एच अब  
जेसी-697080एफ), 26 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
05 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार शिव शंकर (सं. 13980961एच अब जेसी-697397डब्ल्यू),  
23 जनवरी 2010

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 13980976एल अब जेसी-697466एफ),  
13 जनवरी 2010

हवलदार मो. नुरुल अमीन (सं. 13980418के अब जेसी-697345ए),  
26 दिसम्बर 2009

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 13980592डब्ल्यू अब जेसी-697346एच),  
29 दिसम्बर 2009

हवलदार बसीर खान अमीर खान (सं. 13980550के अब जेसी-  
697398वाई), 27 जनवरी 2010

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13980580एफ अब जेसी-697347एल),  
19 दिसम्बर 2009

हवलदार सुदेश कुमार (सं. 13980939एक्स अब जेसी-697348एन),  
23 दिसम्बर 2009

हवलदार उपेन्द्र प्रकाश सिंह (सं. 13980647पी अब जेसी-697426ए),  
22 दिसम्बर 2009

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 13971159एल अब जेसी-  
697350एल), 17 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
14 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार बी सीएच प्रसाद (सं. 13977278एक्स अब जेसी-  
697449एफ), 03 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (ब्लड ट्रान्सफ्यूजन असिस्टेन्ट)

हवलदार जवांजल संजय बापूराव (सं. 13961095एक्स अब जेसी-  
697161एफ), 29 अक्टूबर 2009

हवलदार सुरेन्द्र पाल (सं. 13961193एक्स अब जेसी-697123एल),  
29 सितम्बर 2009

हवलदार उमेश कुमार सिंह (सं. 13961451एम अब जेसी-  
697124एन), 29 सितम्बर 2009

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13961458डब्ल्यू अब जेसी-  
697125डब्ल्यू), 22 सितम्बर 2009

हवलदार प्रोबीर बनर्जी (सं. 13961539डब्ल्यू अब जेसी-697126वाई),  
09 अक्टूबर 2009

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 13957678एच अब जेसी-697127एफ),  
21 अक्टूबर 2009

हवलदार शान्ती डे (सं. 13962530एन अब जेसी-697162के),  
13 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
14 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (लैबोरेटरी असिस्टेन्ट)

हवलदार अजय कुमार उपाध्याय (सं. 13960306एच अब  
जेसी-697082एम), 22 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार परीक्षित सिंह (सं. 13965051एक्स अब जेसी-697010एच),  
01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सत्यवान सिंह (सं. 13965163एक्स अब जेसी-697083पी),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार दिवाकर पाठक (सं. 13965128पी अब जेसी-693031वाई),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार त्रिपाठी राजेश कुमार कमला प्रसाद (सं. 13964982पी अब  
जेसी-697184एच), 11 नवम्बर 2009

हवलदार महेन्द्र पाल (सं. 13965131पी अब जेसी-697353वाई),  
22 दिसम्बर 2009

हवलदार सिंदे भरत जयवन्त (सं. 13965428डब्ल्यू अब जेसी-  
697084एक्स), 22 अक्टूबर 2009

हवलदार पी इल्लैगोवन (सं. 13965640एन अब जेसी-697326पी),  
27 नवम्बर 2009

हवलदार भोषलें दिलीप गनपती (सं. 1395568एच अब जेसी-  
697085ए), 21 अक्टूबर 2009

हवलदार नरेन्द्र सिंह भण्डारी (सं. 13965537एच अब जेसी-  
697086एच), 24 अक्टूबर 2009

हवलदार वार्ड सम्बथ (सं. 13965610डब्ल्यू अब जेसी-697087एल),  
15 अक्टूबर 2009

हवलदार सुनील कुमार (सं. 13965660एफ अब जेसी-697327एक्स),  
10 अक्टूबर 2009

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 13965703एल अब जेसी-697185एल),  
10 नवम्बर 2009

हवलदार गौरी शंकर राय (सं. 13965774एम अब जेसी-697088एन),  
10 अक्टूबर 2009

हवलदार कूटिनों अलबर्ट अलेक्स (सं. 1396074एल अब जेसी-  
697081के), 21 अक्टूबर 2009

हवलदार बी दामोदर राव (सं. 13966207डब्ल्यू अब जेसी-  
697386के), 12 अक्टूबर 2009

हवलदार चन्द्रन एन (सं. 13966584एम अब जेसी-697089डब्ल्यू),  
10 अक्टूबर 2009

हवलदार अवधेश कुमार तिवारी (सं. 1396720एक्स अब जेसी-  
697186एन), 06 नवम्बर 2009

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13965870एफ अब जेसी-697090एल),  
21 अक्टूबर 2009

हवलदार नागराजन पी (सं. 13967075ए अब जेसी-697091एन),  
21 अक्टूबर 2009

हवलदार नरेश कुमार तेवेतिया (सं. 13967176एन अब जेसी-697092डब्ल्यू), 14 अक्टूबर 2009

हवलदार नन्द कुमार (सं. 13967394एम अब जेसी-697447डब्ल्यू), 09 अक्टूबर 2009

हवलदार एस जोन केनेडी (सं. 13967511एम अब जेसी-697093वाई), 14 अक्टूबर 2009

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 13967447ए अब जेसी-697094एफ), 12 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एस पोन्नारासू (सं. 13960937एल अब जेसी-697187डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2009

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 13967454डब्ल्यू अब जेसी-697388पी), 20 अक्टूबर 2009

हवलदार सुभाष सिंह पनवर (सं. 13967561एक्स अब जेसी-697095के), 20 अक्टूबर 2009

हवलदार पोल्ला सिवराजा (सं. 13967626ए अब जेसी-697188वाई), 12 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार बल्लव त्रिपाठी (सं. 13967701वाई अब जेसी-697354एफ), 22 दिसम्बर 2009

हवलदार दीबेन्द्र नाथ प्रधान (सं. 13967766एम अब जेसी-697450डब्ल्यू), 26 दिसम्बर 2009

हवलदार सहदेब नायक (सं. 13967770पी अब जेसी-697355के), 22 दिसम्बर 2009

हवलदार दीनदयाल सिंह (सं. 13968018एल अब जेसी-697356एम), 14 दिसम्बर 2009

हवलदार एस बाबू (सं. 13968209ए अब जेसी-697399एफ), 20 जनवरी 2010

हवलदार मो तारिक सिद्धिकी (सं. 13968290एक्स अब जेसी-697357पी), 22 दिसम्बर 2009

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13968285एम अब जेसी-697358एक्स), 21 दिसम्बर 2009

हवलदार रविन्द्र कुमार (सं. 13968284के अब जेसी-697359ए), 21 दिसम्बर 2009

हवलदार कुमार पाल सिंह (सं. 13968473एन अब जेसी-697400एल), 06 जनवरी 2010

हवलदार रतेश्वर द्विवेदी (सं. 13968465पी अब जेसी-697360पी), 24 दिसम्बर 2009

हवलदार तन्डले दयाराम पुण्डलिक (सं. 13968581एक्स अब जेसी-697401एन), 14 जनवरी 2010

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 13968624एफ अब जेसी-697402डब्ल्यू), 29 जनवरी 2010

हवलदार पवन कुमार (सं. 13968971ए अब जेसी-697361एक्स), 18 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मधूसूदनन पिल्लई एन (सं. 13969038एल अब जेसी-697362ए), 01 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

स्थाई नायब सूबेदार (ओपरेशन रूम असिस्टेन्ट)

हवलदार सुरेश चन्द्र सिंह (सं. 13965027एफ अब जेसी-696943एल), 09 जून 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जितेन्द्र कुमार (सं. 13966611एल अब जेसी-696967पी), 11 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार योगेन्द्र प्रसाद (सं. 13966610एच अब जेसी-696944एन), 01 जून 2009

हवलदार शिव कुमार साह (सं. 13961271के अब जेसी-696968एक्स), 30 जून 2009

हवलदार जफर अली (सं. 13966646एफ अब जेसी-696945डब्ल्यू), 01 जून 2009

हवलदार जगदीश चन्द्र धनकोला (सं. 13966643एन अब जेसी-696946वाई), 10 जून 2009

हवलदार घग विलास आत्माराम (सं. 13966709वाई अब जेसी-696947एफ), 09 जून 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार दीपक कुमार (सं. 13966739डब्ल्यू अब जेसी-696969ए), 01 जुलाई 2009

हवलदार यू बालामुरूगन (सं. 13966873एफ अब जेसी-696970पी), 04 जुलाई 2009

हवलदार गोनेश प्रसाद कैरी (सं. 13967093एच अब जेसी-696971एक्स), 01 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राजगोपालन एम (सं. 13967145एन अब जेसी-697029एफ), 01 सितम्बर 2009

हवलदार अश्वनी कुमारी (सं. 13967132डब्ल्यू अब जेसी-697030डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

हवलदार उमेश सिंह राणा सं. 13967292डब्ल्यू अब जेसी-697097पी), 26 सितम्बर 2009

हवलदार ब्रजेन्द्र कुमार पाण्डेय (सं. 13967328के अब जेसी-697098एक्स), 15 सितम्बर 2009

हवलदार राम बिहारी (सं. 13967409के अब जेसी-697099ए), 03 अक्टूबर 2009

हवलदार दोरले अजय त्रिम्बक (सं. 13967522वाई अब जेसी-697100के), 03 सितम्बर 2009

हवलदार निम्बालकर अजीतराव गुनाजी राव (सं. 13967504डब्ल्यू अब जेसी-697101एम), 03 अक्टूबर 2009

हवलदार एस मारी मूथू (सं. 13967536वाई अब जेसी-697102पी), 09 अक्टूबर 2009

हवलदार बाला दत्त (सं. 13967465एच अब जेसी-697103एक्स), 30 सितम्बर 2009

हवलदार पूरन चन्द्र जोशी (सं. 13967463एक्स अब जेसी-697104ए), 07 अक्टूबर 2009

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 13967559ए अब जेसी-697105एच), 29 सितम्बर 2009

हवलदार असफाक अहमद (सं. 13967565एन अब जेसी-697167एच), 22 अक्टूबर 2009

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13967583डब्ल्यू अब जेसी-697106एल), 30 सितम्बर 2009

हवलदार बीरबल (सं. 13967607पी अब जेसी-697107एन), 26 सितम्बर 2009

हवलदार दीपक मिद्दय (सं. 13967748के अब जेसी-697108डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार अमूल्य कुमार मोहन्यी (सं. 13967810एल अब जेसी-697109वाई), 03 अक्टूबर 2009

हवलदार देवी दत्त (सं. 13966622एक्स अब जेसी-697110एन), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 13968019एन अब जेसी-697111डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2009

हवलदार उमाकांत नायक (सं. 13968043के अब जेसी-697383डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार सलोखे सुखदेव सदासिव (सं. 13968117एन अब जेसी-697112वाई), 03 अक्टूबर 2009

हवलदार नवले नितिन नामदेव (सं. 13968438एल अब जेसी-697113एफ), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार शेष नाथ गिरी (सं. 13968479पी अब जेसी-697114के), 26 अक्टूबर 2009

हवलदार पवन कुमार जादुस (सं. 13967608एक्स अब जेसी-697115एम), 08 अक्टूबर 2009

हवलदार सिकन्दर सिंह (सं. 13966843डब्ल्यू अब जेसी-697116पी), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार सत्यवान सिंह (सं. 13968474डब्ल्यू अब जेसी-697117एक्स), 06 अक्टूबर 2009

हवलदार अंगज नारायण दादू (सं. 13968518एच अब जेसी-697118ए), 14 अक्टूबर 2009

हवलदार वानखरे धूरजी कालू (सं. 13968584एल अब जेसी-697119एच), 10 अक्टूबर 2009

हवलदार राजन सिंह (सं. 13968685वाई अब जेसी-697120एक्स), 10 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार चन्द्र पाल (सं. 13967603वाई अब जेसी-697385एफ), 14 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार भगवान सिंह पुनिया (सं. 13968677ए अब जेसी-697384वाई), 03 नवम्बर 2009

हवलदार मोरे शिवाजी शाम राव (सं. 13968778एन अब जेसी-697169एन), 10 नवम्बर 2009

हवलदार पाटिल सुरेश विट्ठल (सं. 13968853एम अब जेसी-697170एच), 05 नवम्बर 2009

हवलदार गौतम पॉल (सं. 13969244पी अब जेसी-697171एल), 16 नवम्बर 2009

हवलदार हुशंक सिंह (सं. 13969950डब्ल्यू अब जेसी-697172एन), 30 अक्टूबर 2009

हवलदार गोबिन्दा चन्द्र मल्लिक (सं. 13969778ए अब जेसी-697121ए), 10 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेश कुमार यादव (सं. 13970155एच अब जेसी-697351एन), 21 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (हेल्थ असिस्टेन्ट)

हवलदार लोमस कुमार (सं. 13965042डब्ल्यू अब जेसी-697132एम), 18 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 12 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुनील कुमार एसपी (सं. 13970456एम अब जेसी-697008एल), 01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मुर्तजा अली अहमद (सं. 13976284वाई अब जेसी-697133पी), 18 सितम्बर 2009

हवलदार शैक मसूमाल (सं. 13965605एल अब जेसी-697134एक्स), 12 अक्टूबर 2009

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 13974513ए अब जेसी-697135ए), 19 सितम्बर 2009

हवलदार राजू टी (सं. 13976668एन अब जेसी-697324के), 19 सितम्बर 2009

हवलदार चाल्के अशोक चन्दू (सं. 13976168डब्ल्यू अब जेसी-697136एच), 24 सितम्बर 2009

हवलदार धीरेन्द्र कुमार सेनापती (सं. 13970764एम अब जेसी-697137एल), 19 सितम्बर 2009

हवलदार बलवान (सं. 13963515एल अब जेसी-697163एम), 07 नवम्बर 2009

हवलदार नन्दजी सिंह (सं. 13975172एम अब जेसी-697164पी), 31 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13977687एल अब जेसी-697165एक्स), 31 अक्टूबर 2009

हवलदार देबनन्द दास (सं. 13968276एल अब जेसी-697138एन), 26 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मो नाजिमुद्दीन (सं. 13976894एल अब जेसी-697166ए), 19 नवम्बर 2009

हवलदार कमल देव शर्मा (सं. 13976874एक्स अब जेसी-697212के), 10 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार तण्डले भरत गोबिन्द (सं. 13964506डब्ल्यू अब जेसी-697414एल), 11 जनवरी 2009

हवलदार सजीथ कुमार एस (सं. 13977860के अब जेसी-697367वाई), 04 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (एक्सरे असिस्टेन्ट)

हवलदार मोहनन टी (सं. 13970531एल अब जेसी-697403वाई), 29 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार रघुवर सिंह (सं. 13974649के अब जेसी-696965के), 16 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुसन्ता पाल (सं. 13976869एम अब जेसी-697245पी), 01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मैथ्यू कुरियन (सं. 13976713पी अब जेसी-696966एम), 01 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुनील मईकप (सं. 13976214ए अब जेसी-697009एन), 01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मधू के (सं. 13977858एम अब जेसी-697060एन), 16 अक्टूबर 2009

हवलदार प्रसाद कुमार एम (सं. 13977986के अब जेसी-697061डब्ल्यू), 16 अक्टूबर 2009

हवलदार अश्वनि कुमार (सं. 13978628एल अब जेसी-697062वाई), 16 अक्टूबर 2009

हवलदार विश्वजीत मिश्रा (सं. 13979905एक्स अब जेसी-697063एफ), 16 अक्टूबर 2009

हवलदार प्रकाश पाटिल (सं. 13977976ए अब जेसी-697064के), 16 अक्टूबर 2009

- हवलदार अमित्व डे (सं. 13981140ए अब जेसी-697065एम), 16 अक्टूबर 2009
- हवलदार अफताब आलम (सं. 13981205एच अब जेसी-697066पी), 16 अक्टूबर 2009
- हवलदार सुरेन्द्र सिंह उदावत (सं. 13981182एम अब जेसी-697067एक्स), 16 अक्टूबर 2009
- हवलदार एम एम नवास (सं. 13981264पी अब जेसी-697448वाई), 06 नवम्बर 2009
- हवलदार गिरिश चन्द्र (सं. 13981417एन अब जेसी-697068ए), 16 अक्टूबर 2009
- हवलदार सतीश चन्द्र (सं. 13982340एच अब जेसी-697069एच), 16 अक्टूबर 2009
- हवलदार पोटाळे दन्यनेश्वर प्रभू (सं. 13982649वाई अब जेसी-697189एफ), 17 नवम्बर 2009
- हवलदार मनोज पी कुरूप (सं. 13982157ए अब जेसी-697070एक्स), 16 अक्टूबर 2009
- हवलदार सजी एजी (सं. 13981890वाई अब जेसी-697190डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2009
- हवलदार अनिल के (सं. 13977992एक्स अब जेसी-697328ए), 21 अक्टूबर 2009
- हवलदार दिलावर सिंह (सं. 13983820वाई अब जेसी-697390एम), 21 अक्टूबर 2009
- हवलदार रजिन्दर (सं. 13983940एक्स अब जेसी-697191वाई), 02 नवम्बर 2009
- हवलदार मन्नवा सत्य साई बाबू (सं. 13984071ए अब जेसी-697071ए), 23 अक्टूबर 2009
- हवलदार प्रदीपन सी (सं. 13982498एल अब जेसी-697072एच), 16 अक्टूबर 2009
- हवलदार राजेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 13984084एक्स अब जेसी-697389एक्स), 27 अक्टूबर 2009
- हवलदार मोरे वरसीकेत बालीराम (सं. 13984255वाई अब जेसी-697192एफ), 04 नवम्बर 2009
- हवलदार सिबाराम नहका (सं. 13984454एम अब जेसी-697073एल), 16 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार बैजू पानिककर (सं. 13984582के अब जेसी-697193के), 20 नवम्बर 2009
- हवलदार अजीथ कुमार वीजी (सं. 13981891एफ अब जेसी-697194एम), 03 नवम्बर 2009
- हवलदार उमेश मथाड (सं. 13984743एफ अब जेसी-697195पी), 14 नवम्बर 2009
- हवलदार नारायण सिंह (सं. 13985074ए अब जेसी-697196एक्स), 02 नवम्बर 2009
- हवलदार पाटिल सुभाष विष्णु (सं. 13985801एम अब जेसी-697197ए), 13 नवम्बर 2009
- हवलदार रनवीर सिंह यादव (सं. 13986019डब्ल्यू अब जेसी-697198एच), 29 अक्टूबर 2009
- हवलदार करनी राम बदसर (सं. 13985293एफ अब जेसी-697074एन), 23 अक्टूबर 2009
- हवलदार साजू इ के (सं. 13986046ए अब जेसी-697329एच), 01 जनवरी 2010
- हवलदार अनीमल्ला बाला ब्राह्मण (सं. 13986118वाई अब जेसी-697330एक्स), 30 नवम्बर 2009
- हवलदार रेनाती वेंकटा सुब्बा रायडू (सं. 13986954एच अब जेसी-696199एल), 04 नवम्बर 2009
- हवलदार कमलेश कुमार त्रिपाठी (सं. 13983708एम अब जेसी-697200पी), 05 नवम्बर 2009
- हवलदार सुरेश वी (सं. 13986052एन अब जेसी-697168एन), 16 नवम्बर 2009
- हवलदार सालुंके बाबू बाबा (सं. 13986810ए अब जेसी-697331ए), 21 दिसम्बर 2009
- हवलदार देव कुमार सिंह (सं. 13984644वाई अब जेसी-697201एक्स), 14 नवम्बर 2009
- हवलदार सचिन्दर कुमार (सं. 13985568के अब जेसी-697202ए), 31 अक्टूबर 2009
- हवलदार डी असीम सरीफ (सं. 13986947एम अब जेसी-697203एच), 07 नवम्बर 2009
- हवलदार राजेश कुमार (सं. 13986873एच अब जेसी-697204एल), 13 नवम्बर 2009
- हवलदार लुकराम केशी सिंह (सं. 13987435एम अब जेसी-697205एन), 20 नवम्बर 2009
- हवलदार जीवन सिंह (सं. 13987731एक्स अब जेसी-697206डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2009
- हवलदार शीजू थॉमस (सं. 13987753डब्ल्यू अब जेसी-697207वाई), 08 नवम्बर 2009
- हवलदार एन बी रामकृष्णन (सं. 13987963डब्ल्यू अब जेसी-697391पी), 20 जनवरी 2010

हवलदार पुल्लूर वेनु मूर्ति (सं. 13987990ए अब जेसी-697332एच),  
24 नवम्बर 2009

हवलदार वी सीनीवासगन (सं. 13988104एक्स अब जेसी-  
697208एफ), 06 नवम्बर 2009

हवलदार एस मारीमुथू (सं. 13988105ए अब जेसी-697209के),  
16 नवम्बर 2009

हवलदार चिन्तदा श्रीनिवास राव (सं. 13988090एच अब  
जेसी-697392एक्स), 24 दिसम्बर 2009

हवलदार हेम चन्द्र जोशी (सं. 13988117पी अब जेसी-697210वाई),  
14 नवम्बर 2009

हवलदार राकेश कुमार (सं. 13988052एम अब जेसी-697333एल),  
31 दिसम्बर 2009

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 13988001वाई अब जेसी-697393ए),  
10 जनवरी 2009

हवलदार नवीन रावत (सं. 13982022पी अब जेसी-697394एच),  
03 नवम्बर 2009

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 13988122ए अब जेसी-697211एफ),  
17 नवम्बर 2009

हवलदार नरसिंह सिन्हा (सं. 13988190एन अब जेसी-697395एल),  
05 नवम्बर 2009

हवलदार नारायण राम जाट (सं. 13988314एक्स अब जेसी-  
697334एन), 16 दिसम्बर 2009

हवलदार रंजन कुमार (सं. 13988463एल अब जेसी-697335डब्ल्यू),  
28 दिसम्बर 2009

हवलदार सी कलैचेलवम (सं. 13988578वाई अब जेसी-697336वाई),  
12 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार योगाम्बर सिंह (सं. 13988575एल अब जेसी-697404एफ),  
20 जनवरी 2010

हवलदार बिरेन्द्र प्रसाद राय (सं. 13988632एफ अब जेसी-  
697363एच), 26 दिसम्बर 2010

हवलदार एम राजन मैथ्यू (सं. 13988787डब्ल्यू अब जेसी-  
697451वाई), 29 दिसम्बर 2010

हवलदार लक्ष्मीपती एस आर (सं. 13988946एच अब जेसी-  
697405के), 14 जनवरी 2010

हवलदार जगवीर सिंह रावत (सं. 13989517एन अब जेसी-  
697406एम), 21 जनवरी 2010

हवलदार शैलेन्द्र कुमार मिश्रा (सं. 13989782के अब जेसी-  
697407पी), 15 जनवरी 2010

हवलदार मागर प्रशान्त दत्तात्रेय (सं. 13989833एम अब जेसी-  
697408एक्स), 20 जनवरी 2010

हवलदार मो. युसुफ शाह (सं. 13989912एफ अब जेसी-  
697452एफ), 08 फरवरी 2010

हवलदार अशोक कुमार गंगाल (सं. 13990298के अब जेसी-  
697444एच), 21 जनवरी 2010

हवलदार सरवनन एस (सं. 13990710एम अब जेसी-697409ए),  
14 जनवरी 2010

हवलदार सरोजा रंजन पती (सं. 13991040एच अब जेसी-  
697364एल), 26 दिसम्बर 2009

हवलदार सजीवन के टी (सं. 13991070ए अब जेसी-697410एफ),  
21 जनवरी 2010

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13991157एफ अब जेसी-697411एक्स),  
14 जनवरी 2010

हवलदार राम चन्द्रा (सं. 13991809पी अब जेसी-697365एन),  
24 दिसम्बर 2009

हवलदार अभिलाश जी टी (सं. 13990211एक्स अब जेसी-697412ए),  
23 जनवरी 2010

हवलदार एम चन्द्र सेकरन (सं. 13993480पी अब जेसी-697413एच),  
25 जनवरी 2010

हवलदार खयाली राम यादव (सं. 13986190पी अब जेसी-  
697366डब्ल्यू), 31 दिसम्बर 2009

हवलदार धरमपाल सिंह (सं. 13988574एच अब जेसी-697446एन),  
11 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
14 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं. 13989744एन अब जेसी-697465वाई),  
18 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (साईक्रेटिक नर्सिंग असिस्टेन्ट)

हवलदार उमेश प्रसाद (सं. 13957942एल अब जेसी-696942एच),  
02 जून 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राम मूर्ति (सं. 13959684पी अब जेसी-697223ए),  
03 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार उमराव सिंह (सं. 13961632एच अब जेसी-697382एन),  
03 नवम्बर 2009

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 13961838पी अब जेसी-697131के),  
26 अक्टूबर 2009

हवलदार सजीवन नायर सी (सं. 13962213एम अब जेसी-  
697157वाई), 13 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार झा (सं. 13963377पी अब जेसी-  
697445एल), 09 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (डेन्टल ओपरेशन रूम असिस्टेन्ट)

हवलदार धरम पाल (सं. 13965552एक्स अब जेसी-697320एन),  
01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 13965586एल अब जेसी-  
697122एच), 22 अक्टूबर 2009

हवलदार अमर सिंह (सं. 13965658के अब जेसी-697321डब्ल्यू),  
29 अक्टूबर 2009

हवलदार किशन कुमार यादव (सं. 13965814एच अब जेसी-  
697159के), 29 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार प्रनब कुमार कुन्डू (सं. 13985938एक्स अब जेसी-  
697160वाई), 12 नवम्बर 2009

हवलदार रूप लाल (सं. 13965977डब्ल्यू अब जेसी-697323एफ),  
21 नवम्बर 2009

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13965994डब्ल्यू अब जेसी-697337एफ),  
15 दिसम्बर 2009

हवलदार गडी अप्पा राव (सं. 13966210डब्ल्यू अब जेसी-  
697340एफ), 14 दिसम्बर 2009

हवलदार शिव नारायण पटीदार (सं. 13966645वाई अब जेसी-  
697331के), 14 दिसम्बर 2009

हवलदार महेन्द्र पाल सिंह (सं. 13966633के अब जेसी-697342एम),  
10 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (डेन्टल तकनीशीयन)

हवलदार चन्द्र राम (सं. 13983866एफ अब जेसी-697158एफ),  
17 नवम्बर 2009

हवलदार हरिदास के वी के (सं. 13984162के अब जेसी-697343पी),  
01 दिसम्बर 2009

हवलदार बी सुरेश (सं. 13986828डब्ल्यू अब जेसी-697344एक्स),  
30 नवम्बर 2009

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 13987185डब्ल्यू अब जेसी-697454एम),  
09 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (स्पेशल ट्रीटमेन्ट असिस्टेन्ट)

हवलदार तेज पाल सिंह (सं. 13957531एम अब जेसी-697352डब्ल्यू),  
17 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार इन्द्र सिंह (सं. 13957516एक्स अब जेसी-697415एन),  
11 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

स्थायी नायब सूबेदार (फिजियोथेरोपिस्ट असिस्टेन्ट)

हवलदार मोहना कृष्णन के (सं. 13965751एल अब जेसी-697128के),  
01 अक्टूबर 2009

हवलदार सुकबीर सुब्बा (सं. 13965777ए अब जेसी-697387एम),  
08 अक्टूबर 2009

हवलदार इंग्ले धनजी निवरुत्ती (सं. 13966025एच अब जेसी-  
697129एम), 30 सितम्बर 2009

हवलदार सौगता चक्रवर्ती (सं. 13966010ए अब जेसी-697130एफ),  
24 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
14 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार वी एम आर कार्तिकेयन (सं. 13966171एच अब  
जेसी-697322वाई), 01 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार येसुराज थूराई पी (सं. 13966186एल अब जेसी-  
697268एफ), 07 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)



स्थायी नायब सूबेदार (डेन्टल हाईजीनिस्ट)

हवलदार वीर नारायण सिंह (सं. 13962460ए अब जेसी-697096एम),  
26 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
04 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार प्रकाश कुमार पी बी (सं. 13963278एम अब जेसी-  
697213एम), 24 नवम्बर 2009

हवलदार रमानन्द महतो (सं. 13963366एच अब जेसी-697338के),  
10 दिसम्बर 2009

हवलदार अप्रेस चन्द्र साहा (सं. 13964179डब्ल्यू अब जेसी-  
697214पी), 19 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
29 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार कृष्ण पाल सिंह (सं. 13964214एन अब जेसी-697339एम),  
03 दिसम्बर 2009

हवलदार राकेश कुमार सिंह (सं. 13964436एच अब जेसी-  
697453के), 17 फरवरी 2009

हवलदार निरंजन कुमार सिंह (सं. 13964606एफ अब जेसी-  
697416डब्ल्यू), 25 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 13964600ए अब जेसी-  
697417वाई), 20 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

कुलवन्त राणा  
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 734, दिनांक 07 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी)

लोकनाथ त्रिपाठी (सं. 14613892एच अब जेसी-765014ए),  
01 जुलाई 2010

दामोधरन के एम (सं. 14589396ए अब जेसी-765167के), 02 अगस्त  
2010/01 अगस्त 2010\*

संजीव कुमार (सं. 14600304एल अब जेसी-765170के), 02 अगस्त  
2010/01 अगस्त 2010\*

इन्द्र सिंह कस्साना (सं. 14587370एम अब जेसी-765171एम),  
02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

आलोक कुमार दास (सं. 14613173के अब जेसी-765174ए),  
01 अगस्त 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

पूरण चन्द्र (सं. 14610296एल अब जेसी-765033एल), 01 जुलाई  
2010

बी सिमाद्री रेड्डी (सं. 14611253एच अब जेसी-765037एफ),  
01 जुलाई 2010

प्रमोद कुमार सिंह (सं. 14611321एल अब जेसी-765040एफ),  
01 जुलाई 2010

प्रमोद के वी (सं. 14611451एन अब जेसी-765084वाई), 01 जुलाई  
2010

विजेन्द्र सिंह (सं. 14612002एल अब जेसी-765085एफ), 01 जुलाई  
2010

विन्ध्याचल यादव (सं. 14618776के अब जेसी-765092एक्स),  
01 जुलाई 2010

जाधव आनंदा दत्तु (सं. 14619169एक्स अब जेसी-765095एल),  
01 जुलाई 2010

अजीथ के (सं. 14619214वाई अब जेसी-765135एफ), 02 अगस्त  
2010/01 अगस्त 2010\*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एफ (आई और पी)

रतन लाल (सं. 14630326वाई अब जेसी-765050एल), 01 जुलाई  
2010

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिंकवरी) के रैंक में

पंकज कुमार नन्दी (सं. 14570385वाई अब जेसी-765065एन),  
01 जुलाई 2010

सुनील कुमार सिंह (सं. 14578882एक्स अब जेसी-765066डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2010

मुख्तार सिंह (सं. 14581820एच अब जेसी-765068एफ), 01 जुलाई  
2010

हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक बी वेहीकल के रैंक में

महेन्द्र सिंह गुर्जर (सं. 14569837के अब जेसी-765074पी), 01 जुलाई  
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेटवर्किंग के रैंक में

स्वरन सिंह (सं. 14616090के अब जेसी-765102डब्ल्यू), 01  
जुलाई 2010

सुरेश सारस्वत (सं. 14616103डब्ल्यू अब जेसी-765103वाई),  
01 जुलाई 2010

संजीवन कुनियील (सं. 14615174एल अब जेसी-765107पी),  
01 जुलाई 2010

रमनय्या पित्रिंती (सं. 14616449ए अब जेसी-765110पी), 05 जुलाई  
2010/01 जुलाई 2010\*

मनोज कुमार सिंह (सं. 14618029वाई अब जेसी-765111एक्स),  
01 जुलाई 2010

सुना नशी (सं. 14602226एक्स अब जेसी-765112ए), 01 जुलाई  
2010

चन्द्र भान सिंह (सं. 14616395के अब जेसी-765114एल), 01 जुलाई  
2010

रजिन्दर सिंह (सं. 14618100एफ अब जेसी-765115एन), 01 जुलाई  
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

जे टी अल्फोंस ब्रूटोन (सं. 14622595डब्ल्यू अब जेसी-765122के),  
23 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010\*

राय राममंगल रविन्द्र (सं. 14622598के अब जेसी-765123एम),  
03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010\*

बासुदेव पाल (सं. 14623093ए अब जेसी-765131एल), 01 जुलाई  
2010

क्रूशना चन्द्र स्वैन (सं. 14623135एफ अब जेसी-765132एन),  
01 जुलाई 2010

रोहीतास कुमार करावासरा (सं. 14623165वाई अब जेसी-765134वाई),  
01 जुलाई 2010

पवन सिंह (सं. 14623802के अब जेसी-765139एक्स), 03 अगस्त  
2010/01 अगस्त 2010\*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ईलेक्ट के रैंक में

कामता प्रसाद (सं. 14619431पी अब जेसी-765141पी), 21 जुलाई  
2010/23 मई 2010\*

निरंजन बेहरा (सं. 14623737पी अब जेसी-765143ए), 12 जुलाई  
2010/01 जुलाई 2010\*

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलर्जी के रैंक में

मिश्री लाल यादव (सं. 14587596एक्स अब जेसी-765155पी),  
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो ईलेक्ट के रैंक में

ऋषि पाल (सं. 14576247एन अब जेसी-765157ए), 01 जुलाई  
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

प्रिया ब्रता महतो (सं. 14575888एन अब जेसी-765159एल),  
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में

अजब सिंह (सं. 14594921पी अब जेसी-765165वाई), 01 अगस्त  
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

बिनोदी फर्काडे (सं. 14621631के अब जेसी-765185एम),  
01 अगस्त 2010

एम रमेश (सं. 14621645के अब जेसी-765186पी), 01 अगस्त  
2010

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सदानंदन पी (जेसी-759043वाई), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी  
2010\*

शैक खाजा वली (जेसी-759304एफ), 01 जुलाई 2010

बिब्रोसी कुमार नायक (जेसी-759317वाई), 01 जुलाई 2010

छिगन लाल (जेसी-759341पी), 09 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010\*

बाबू लाल सराग्रा (जेसी-759280एच), 01 जुलाई 2010

राज कुमार सिंह (जेसी-759306एम), 23 जुलाई 2010/01 जुलाई  
2010\*

राम दुलार प्रसाद (जेसी-759358एच), 01 अगस्त 2010

श्रीभगवान शर्मा (जेसी-759345एल), 01 अगस्त 2010

सोनावाने अशोक रेवाजी (जेसी-759360ए), 01 अगस्त 2010

भगवान सिंह यादव (जेसी-759354एम), 01 अगस्त 2010

प्रवीण झा (जेसी-759414डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

अशित कुमार पॉल (जेसी-759353के), 01 अगस्त 2010

जी सी सेन्थिल कुमार (जेसी-759350डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

ललित कुमार संकलन (जेसी-759361एच), 01 अगस्त 2010

बलबीर सिंह (जेसी-759352एफ), 01 अगस्त 2010

पाटील रोहिदास लक्ष्मण (जेसी-759351वाई), 02 अगस्त 2010/  
01 अगस्त 2010\*

उदय पाल (जेसी-759343ए), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

दलबीर सिंह (जेसी-759355पी), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

सोहन पाल सिंह (जेसी-759362एल), 06 अगस्त 2010/01 अगस्त  
2010\*

दर्शन सिंह (जेसी-759344एच), 09 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

के सुन्दरा मूर्थी (जेसी-759364डब्ल्यू), 11 अगस्त 2010/01 अगस्त  
2010\*

दविंदर सिंह (जेसी-759412एल), 12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 प्रेम सिंह (जेसी-759413एन), 16 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 अजय कुमार परीडा (जेसी-759411एच), 17 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 मन्याला हरिनारायण (जेसी-759359एल), 19 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 रविश कुमार (जेसी-759357ए), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 पी सी पुथियोथ (जेसी-759434के), 01 सितम्बर 2010  
 योगेन्द्र सिंह (जेसी-759366एफ), 12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 शिव नारायण प्रसाद (जेसी-759346एन), 07 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 गोपाल चन्द्र दास (जेसी-759522ए), 01 सितम्बर 2010  
 ऊमेद सिंह (जेसी-759365वाई), 11 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 गयाधर मिश्रा (जेसी-759297डब्ल्यू), 08 जुलाई 2010/01 जून 2010\*

#### सूबेदार क्लर्क (एसडी)

मान सिंह (जेसी-759749एन), 26 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*  
 जदुमणी लेंका (जेसी-760148पी), 01 अगस्त 2010  
 गवली गजानन शामराव (जेसी-760304एन), 01 अगस्त 2010  
 चौधरी बेहरा (जेसी-760149एक्स), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 किशोर चन्द्र प्रधान (जेसी-760302एच), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 अशरफ पी (जेसी-760498एफ), 01 सितम्बर 2010  
 प्रमोद सिंह (जेसी-760378एफ), 02 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010\*  
 कृष्णा मूर्थी एल (जेसी-760303एल), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 रमेश चन्द्र मल्ल (जेसी-760541एक्स); 01 सितम्बर 2010

#### सूबेदार टेक कम्प्यूनिक्शन के रैंक में

आनंद सिंह परीहर (जेसी-762300डब्ल्यू), 01 मई 2010  
 शीश पाल (जेसी-763548एम), 19 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

#### सूबेदार अटो इलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में

चंद्रिका दत्त पान्डेय (जेसी-763474एच), 01 अगस्त 2010

#### सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

सुरेश चन्द्र शर्मा (जेसी-762229एन), 01 अगस्त 2010  
 मिन्या सिंह (जेसी-762236के), 01 अगस्त 2010  
 आनंद कुमार तिवारी (जेसी-762235एफ), 01 अगस्त 2010  
 सुभाष चन्द्र यादव (जेसी-762230एच), 01 अगस्त 2010  
 थोम्बरे बाबासाहेब रामचन्द्र (जेसी-762234वाई), 01 अगस्त 2010  
 राम कनवर यादव (जेसी-762457डब्ल्यू), 04 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 जैवेब वर्धिश (जेसी-762238), 07 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 अर्विन्द कुमार सिन्हा (जेसी-762456एन), 13 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 राम लाल भारद्वाज (जेसी-762591एफ), 01 सितम्बर 2010  
 मोहन चन्द (जेसी-762810एक्स), 01 सितम्बर 2010

#### सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

शंकर प्रसाद यादव (जेसी-760721ए), 01 अगस्त 2010  
 जिजत सिंह कुशवाहा (जेसी-760372एफ), 01 अगस्त 2010  
 राम राज मौर्या (जेसी-760370डब्ल्यू), 03 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 रामबलि राय (जेसी-760489ए), 01 अगस्त 2010

#### सूबेदार मास्टर टेक (जी सी ई)

राजेन्द्र सिंह यादव (जेसी-759410ए), 01 अगस्त 2010

#### सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

प्रफूल्ला कुमार राउत (जेसी-762472एल), 01 अगस्त 2010  
 हीरा (जेसी-762471एच), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 प्रेम कुमार (जेसी-762474डब्ल्यू), 07 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*  
 प्रहलाद प्रसाद साह (जेसी-762473एन), 12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

#### सूबेदार आपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में

रैहानुल हक (जेसी-755919पी), 01 अगस्त 2010  
 उपेन्द्र चन्द्र गोगोई (जेसी-756089डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

#### सूबेदार आर टी (पंडित)

मनोज कुमार पाठक (जेसी-754407डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

## सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ईलेक्ट)

राम सेवक (जेसी-760269डब्ल्यू), 04 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

जग मोहन सिंह (जेसी-760687एल), 01 सितम्बर 2010

## सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

के मुर्गेशन (जेसी-759418एम), 05 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

शशि एम (जेसी-759419पी), 12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

अरविन्द प्रसाद सिंह (जेसी-759417के), 16 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

श्याम सिंह नेगी (जेसी-759420के), 01 सितम्बर 2010

सुरेन्द्र कुमार राउत (जेसी-759427एन), 01 सितम्बर 2010

संजय कुमार सतापथी (जेसी-759428डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

सुरेन्द्र कुमार (जेसी-759426एल), 01 सितम्बर 2010

सतेन्द्र कुमार (जेसी-759431डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

ए जानकी राम (जेसी-759433एफ), 01 सितम्बर 2010

के सुब्रामणयम (जेसी-759429वाई), 01 सितम्बर 2010

एस विजय भास्कर राव (जेसी-759424वाई), 01 सितम्बर 2010

## सूबेदार अप्टो ईलेक्ट के रैंक में

बिपुल चन्द्र दास (जेसी-763855के), 08 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

## सूबेदार अटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

के रामन स्वामी (जेसी-763736एन), 09 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

अमरजीत सिंह (जेसी-762817एफ), 12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

हरपाल सिंह (जेसी-763719एन), 13 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

निर्मल कुमार शर्मा (जेसी-763715एक्स), 13 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

शशि भूषण राय (जेसी-763717एच), 13 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

राज कुमार तिवारी (जेसी-763815एच), 16 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010

महेन्द्र सिंह यादव (जेसी-763862ए), 01 सितम्बर 2010

## सूबेदार मास्टर टेक ईलेक्ट के रैंक में

वीरेन्द्र कुमार यादव (जेसी-759349एफ), 09 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

पुरूषोत्तम सिंह (जेसी-759436पी), 13 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

## सूबेदार अटो टेक इंजीनियर इक्वूपमेंट के रैंक में

अनिल छिब्र (जेसी-762538डब्ल्यू), 13 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए ई एन)

राजबीर (जेसी-760265ए), 13 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010\*

## सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

रतना कुमारन के वी (जेसी-760931ए), 01 सितम्बर 2010

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

## वायु सेना

सं. 735, दिनांक 07 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :-

## भारतीय वायु शाखा

## संभारिकी शाखा

## ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन ए के बेनीपुरी (सं. 16037), 15 अक्टूबर 2008

ग्रुप कैप्टन पी एन नायर (सं. 16798), 01 फरवरी 2009

ग्रुप कैप्टन पी के सिंह (सं. 16855), 16 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन एच एस कमल (सं. 16860), 23 मार्च 2009

ग्रुप कैप्टन एम बालादित्य (सं. 17230), 01 जून 2009

ग्रुप कैप्टन डी के सिंह (सं. 17232), 01 जून 2009

ग्रुप कैप्टन डी कुमार (सं. 16854), 01 जून 2009

ग्रुप कैप्टन जे के पाण्डे (सं. 17233), 01 सितम्बर 2009

ग्रुप कैप्टन के एस रेड्डी (सं. 17774), 01 सितम्बर 2009

ग्रुप कैप्टन आर शर्मा (सं. 17785), 01 अक्टूबर 2009

ग्रुप कैप्टन एन श्रीवास्तव (सं. 17787), 01 अक्टूबर 2009

ग्रुप कैप्टन बी पॉल (सं. 17791), 01 नवम्बर 2009

ए के सिंह  
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

वायु सेना  
सं. 736, दिनांक 08 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

स्क्वॉ लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

अल्प सेवा कमीशन

ए ई (एल) शाखा

श्रीमती आरती वासदेव (24155), श्रीमती पल्लवी भराडे (24150), श्रीमती बोसली गोगोई (24151), श्रीमती कंचन सिंह (24148)--27 मई 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

श्रीमती यू शालिग्राम (24114), सुश्री भावना मेहरा (24116)--29 जून 2009 से प्रभावी

श्रीमती एस चौहान (23935), श्रीमती आर के भुल्लर (23941), श्रीमती नवदीप परमार (23942), श्रीमती एन गायत्री (23939)--24 मई 2009 से प्रभावी

श्रीमती श्वेता रावत (24308), श्रीमती टी मिस्बाह (24312)--21 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

श्रीमती एम मंडल (24316)--21 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

श्रीमती नम्रता चंदी (24109)--29 जून 2009 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

विश्वजीत डे (24839), राव पीवीवी (24838), यू सत्यन (24855), के एन रमेश (24853), एजाज़ फैयाज (24858), अरूण प्रभाकरन (24840)--22 नवम्बर 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

रवि शंकर यादव (24844), गुरुशांत कर्की (24851), रत्नाकर देशमुख (24843), एस लाम्बा (24845), इन्दरजीत सिंह सहदेव (24846), रजनीश गौतम (24842)--22 नवम्बर 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

के बी ठाकुर (24330), आर के शर्मा (24336), एम सी सूदन (24333), तारिणी राव बहेरा (24332), सिंह के (24337), मित्र लाल जोशी (24331), वी राजगोपालन (24334), एम के नंदी (24341), बलजीत सिंह (24340), के एस शिंदे (24339), जी पी चतुर्वेदी (24338), जी के कोहल (24335)--18 जून 2010 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

रामजी (24345), राजेन्द्र सिंह (24348)--18 जून 2010 से प्रभावी

लेखा शाखा

आईपी सिंह (24343), अंसार अहमद (24344)--18 जनवरी 2010 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

शेख सिद्दकी (24351), डी के मुखोपाध्याय (24350), बी एस यादव (24352)--18 जनवरी 2010 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

वी जी गोरे (23524), एन महाजन (23530)--17 जून 2008 से प्रभावी

वी चतुर्वेदी (23765), वी सोमसुन्दर (23784)--22 नवम्बर 2009 से प्रभावी

(16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

पी चड्ढा (23767), 21 जून 2009 से प्रभावी

(16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

एस एम यूनिस (23781), 07 मई 2009 से प्रभावी

(16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

पी चिल्लर (23785), 02 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

(16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

के वी श्रीनिवास (23788), 30 जून 2009 से प्रभावी

(16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

प्रशासन शाखा

ए पी राजेश (23956), एस आर बिजू (23959), ए शर्मा (23965), डी एस नेगी (23969)--28 फरवरी 2010 से प्रभावी

एम त्रिखा (23971)--10 मार्च 2010 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

प्रीत गुरबिन्दर सिंह (24705), एन संजीव (24694), पी आर गुप्ता (24696), मुरुगप्पा गुड्डद (24698), कृष्णन अनंत राजन (24697)--23 मई 2009 से प्रभावी

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

सं. 737, दिनांक 08 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

फ्ला. अफ. से फ्ला. लेफ्ट. के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

एम सिंह (29241), पी वी बसेत्ति (29242), एस एस अल्वे (29237), वी जोशी (29238), के सिंह (29239), पी भटनागर

(29240), एन चौधरी (29236), ए गोडबोले (29235), एम राणा (29251), पी आर अभिलाष (29252), के वी प्रकाश (29175), आर कसाना (29234), एस मेहता (29206), ए सिंह (29207), एस के प्रसाद (29189), आर परिजा (29190), जे यादव (29191), एन उपाध्याय (29192), एम मोहम्मद हफीजुल्ला (29204), ए शर्मा (29205), आर जे ईरानी (29244), ए त्रिवेदी (29245), ए वर्मा (29248), एस के पाण्डे (29250), पी सिंघल (29208), वी कुमार (29210), एस डागर (29211), डी के शर्मा (29212), एन काजला (29176), आर बसोया (29178), एस जसरोतिया (29179), एस सिंह (29180), पी नंदगोपन (29181), एम दास (29215), ए यादव (29216), एम के गौतम (29213), एस के दास (29214), जी एस आशिष (29228), एम पी लोंधे (29229), ए शर्मा (29217), ए पाण्डे (29218), वी कुमार (29219), ए पी एस सैनी (29174), जी पी एस वासन (29182), वी चतुर्वेदी (29221), के मिश्रा (29222), एस जी लिम्कार (29223), एस के सेंथिल (29224), ए डोगरा (29225), आर पूनिया (29226), आर मनु (29227), एम एस सभरवाल (29183), एस एन पोहरे (29184), सी एस चोरमडे (29185), पी बिश्नोई (29196), एम व्यास (29197), कुणाल (29198), एम डोगरा (29200), ए अजय कुमार (29201), पी वी मेनन (29202), ए पारीक (29203), आर के शर्मा (29220), पी ए हरिहरन (29243), पी शर्मा (29193), एस सिंह (29194), आर एम गोपीकृष्णन (29195), के शर्मा (29230), आर कुमार (29231), एस पाण्डे (29232), वी एच रेड्डी (29186), के एस राठौर (29188), वी शर्मा (29209), 15 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

एस आर गांगुली (29253), 30 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

वी एम मार्लिकर  
विंग कमांडर  
सयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3 (डी)

सेना शाखा

सं. 738, दिनांक 8 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हे स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

संदीप राणा (एमएस-15387एल), (एमआर-08969एच), एएमसी, 22 सितम्बर 2006 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 सितम्बर 2004 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा (एनेस्थीसीयोलजी) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.02.2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

रूपसिंह परमार (एमएस-15117डब्ल्यू), (एमआर-08971ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17.02.2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

प्रभात पीयूष (एमएस-15333के), (एमआर-08972एच), एएमसी, 22 सितम्बर 2006 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 मार्च 2006 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17.05.2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

वीना खड़ायत (एमएस-15640एफ), (एमआर-08983पी), एएमसी, 06 सितम्बर 2007।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17.05.2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

मंगेश कुमार (एमएस-15360एन), (एमआर-08974एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2006।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22.09.2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

वारथे अशोक भीमराव (एमएस-15437एल), (एमआर-08977एफ), एएमसी, 22 जनवरी 2007।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.02.2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

नवनीत आनन्द (एमएस-15611एम), (एमआर-08982एम), एएमसी, 06 सितम्बर 2007।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05.07.2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

ले के पद पर

ऋषि शर्मा (एमएस-14864पी), (एमआर-08970एक्स), एएमसी, 22 सितम्बर 2004।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15.04.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

## सर्जन ले के पद पर

रानी मलिक (एमएस-15550ए), (एमआर-08973एल), (75929आर), एएमसी, 22 सितम्बर 2006।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12.01.2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

मनीष (एमएस-14895पी), (एमआर-08967एक्स), (75863आर), एएमसी, 05 अक्टूबर 2004 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 05 अक्टूबर 2001 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (एनेस्थिसिया) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04.07.2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

त्रिगोडियर यश पांडे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 739, दिनांक 9 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

श्रीमती ए सुमिता कुमारी को लेखा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 25 अगस्त 2010 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800 एवं ग्रेड पे रु. 4,600 पर।

श्री एम पी मारस्कोल्हे को संयुक्त निदेशक (प्रशासन), ग्रुप 'ए' के रूप में डीआरडीओ में 01 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 37,400--67,000 एवं ग्रेड पे रु. 8,700 पर।

वी पी सिंह

उपनिदेशक (कार्मिक एए-2)

सं. 740, दिनांक 9 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल), पुणे के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2010 पूर्वाह्न से।

नाम, पदनाम, पदोन्नति, वेतनमान

श्री डी के कानकने, वैज्ञानिक एफ, वैज्ञानिक जी, रु. 37,400--67,000-10,000, विशेष वेतन रु. 4,000

श्री जी एम गोरे, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400--67,000-8,900

डॉ. आर आर संघावी, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400--67,000-8,900

डॉ. आर वी सिंह, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400--67,000-8,900

श्री एन पनदारीनाथ राव, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400--67,000-8,900

श्री हिमांशु शेखर, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रु. 37,400--67,000-8,900

मिस हिंमा प्रशान्त, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री यू एस प्रसाद, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री केजे थोमस, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री आर आर सोमन, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री एस जी अवचात, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री मुकेश कुमार जैन, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

डॉ. (मिस) बी एस भींगारकर, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री एस देबनाथ, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री रमेश कुरवा, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री ए के विश्वाकर्मा, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

श्री सुनील जैन, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

डॉ. एस राधाकृष्णन, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक डी, रु. 37,400--67,000-8,700

नरसिंह साहु

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

(सैन्य शाखा)

सं. 741, दिनांक 9 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थाई आयोग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 03 मई 1997, 30 जनवरी 1999 और 17 जुलाई 1999 को प्रकाशित हुए भारत सरकार के राजपत्रों में रक्षा मंत्रालय संबंधी अधिसूचना

के भाग 1 अनुभाग IV के नियमित सेना में "स्थायी आयोग" शीर्षक के अन्तर्गत पैरा 1 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

के लिये-- "निम्नलिखित को 07 दिसम्बर 1996 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के 2/लेफ्टिनेन्ट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हे 10 दिसम्बर 1994 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत को दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है और 10 दिसम्बर 1996 से उन्हे लेफ्टिनेन्ट के पद पर प्रोन्नत किया जाता है।"

पढ़े--

"निम्नलिखित को 07 दिसम्बर 1996 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के 2/लेफ्टिनेन्ट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हे 11 दिसम्बर 1994 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत को दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है और 11 दिसम्बर 1996 से उन्हे लेफ्टिनेन्ट के पद पर प्रोन्नत किया जाता है।"

राहुल शर्मा  
ले कर्नल  
एएमएस-8बी



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th January 2011

No. 724, dated 2nd December 2010—The President is pleased to appoint the following CSS Section Officers to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence until further orders from the dates indicated against them in terms of DoP&T Order No. 5/3/2010-CS I(U) dated the 26th May, 2010 followed by OM dated 01 Jun 2010:—

Name of the officer, Date of actual joining in the Ministry of Defence, Deemed to have been promoted to Grade-I (US of CSS) and Borne on the Strength of Ministry/Deptt.

Shri Rajeev Jauhari (CSL No. 6529), 02 Jun 2010 (FN), 26 May 2010 (FN), Department of Industrial Policy & Promotion

Shri H K Mallick (CSL No. 6587) 08 Jun 2010 (FN), 26 May 2010 (FN), Department of Telecommunications

Shri R K Verma (CSL No. 6584), 08 Jun 2010 (FN), 26 May 2010 (FN), L&DO, Ministry of Urban Development

The appointment of the above officers as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions:—

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular Appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.

Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The aforesaid ad-hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P R Sharma vs UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P S Bhandari vs UoI & Ors pending before the CAT, New Delhi.

This Notification supersedes the Ministry's Notification's No. A-19014/8/2010-D(Estt.I/Gp.I) dated 15 Jun 2010, No. A-19014/11/2010-D(Estt.I/Gp.I) dated 15 Jun 2010 and No. A-19014/12/2010-D(Estt.I/Gp.I) dated 15 Jun 2010 appointing the above officers as Under Secretary on ad-hoc basis.

The President is pleased to appoint the following regular Assistants borne on the CSS Cadre, presently officiating as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence, as Section Officer on regular basis in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- until further orders, consequent on inclusion of their name in the Select List of Section officers' Grade for the year 2008 against Seniority Quota:—

Name

Shri KC Thomas

Shri SK Malhotra

Shri Ramesh Goel

Shri Kumar Pranav

Shri Surinder Kumar

Shri Rattan Singh

The appointment of the Officers in the Select List 2008 (SQ) would be deemed to have been made effective from the 1st July, 2008, for the purpose of fixation of pay on notional basis. The actual benefits, however, would be available from the date, the Officers are so appointed to the grade of Section Officer and assumes the charge of the post.

The aforesaid appointment is subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs UoI pending in High Court, Delhi, Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UoI pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

The President is pleased to appoint Shri DS Pathania regular Assistant borne on the CSS Cadre, presently officiating as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence, as Section Officer on regular basis w.e.f. 1st Jul 2003 (FN) until further orders, as per the advice given by DoP&T vide OM No. 5/25/2004-CS.I (S) dated 27th September, 2010 for inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Seniority Quota.

K MURALI  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 725, dated 2nd December 2010—The President is pleased to make the following appointments:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

(To be Lts wef 12 Dec 2009)

The undermentioned 02 (Two) Gentleman Cadets of 125 Regular Course are granted permanent commission in the rank of Lt wef 12 Dec 2009 (F/N) under the terms and conditions of AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA), SAI 4/S/74 (for Direct Entry) and AI 55/73 for Ex ACC.

Abhishek Anand (IC-71731X), AVN seniority next below Lal Dinpuia (IC-71730P), Inf and Rachit Kumar (IC-72034K), Inf seniority next below Prashant Tripathi (IC-72033F), Arty whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 31 Jul 2010.

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned 138 Officers of SSC(NT)-88 Course have completed their Short Service Commission on probation

for six months commencing from 19 Sep 2009. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 19 Sep 2009 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

SS Number, Name and Arm/Service

(SS-43618M) Prakash Singh Bisht, Inf	(SS-43660L) Rizwan, Mech
(SS-43620K) Sultan Singh Jat, AVN	(SS-43661N) Rajesh Roshan Verma, Inf
(SS-43622P) Chatur Prashant Atmaram, Engrs	(SS-43662W) Rejin C, Inf
(SS-43623X) Laishram Tony Singh, Inf	(SS-43663Y) Sangram Singh Rawal, AVN
(SS-43624A) Thanggin Baite, Inf	(SS-43664F) Lovedeep Singh Bhullar, AC
(SS-43625H) Vinay Prashar, Arty	(SS-43665K) Rohit Kumar, ASC
(SS-43626L) Sahil Thomas Poonnen, AC	(SS-43666M) Vineet Phogat, Mech
(SS-43629Y) Pardeep Kumar, Arty	(SS-43667P) Utkarsh Sharma, Engrs
(SS-43630N) Geetika Goswami, Inf	(SS-43668X) Raj Kumar Yadav, Inf
(SS-43631W) Jigmet Singay, Inf	(SS-43669A) Joy Guptan, Arty
(SS-43632Y) Vikas Raghav, Arty	(SS-43670P) Naveen Kumar, Inf
(SS-43633F) Deepu Singh, Inf	(SS-43671X) Ajay Kumar, Engrs
(SS-43634K) Vikram Singh, ASC	(SS-43672A) Maan Rajesh Kumar Ramjilal, Arty
(SS-43635M) Manoj Kumar, AOC	(SS-43675N) Biswajit Barick, AAD
(SS-43636P) Naveen Ahlawat, AVN	(SS-43676W) Ranjeet Pandey, Inf
(SS-43638A) Dhok Abhishek Vijay, AAD	(SS-43677Y) Jaipal Singh Charak, Engrs
(SS-43639H) Deepak Singh Manhas, Arty	(SS-43678F) Ashish Kumar Bhattacharya, Sigs
(SS-43640X) Ayush Kulshrestha, Inf	(SS-43679K) Anil Kumar, AAD
(SS-43641A) Mayur Jamwal, Inf	(SS-43680Y) Vivek Anand, Int
(SS-43642H) Abhishek Salaria, Arty	(SS-43681F) Shankar Singh Negi, Arty
(SS-43643L) Vaddi Rajesh Ramakrishna, Inf	(SS-43682K) Gaurav Atri, Arty
(SS-43644N) Pradeep Kumar, Inf	(SS-43683M) Sunil Pahel, Arty
(SS-43645W) Yogesh Kumar Ahlawat, Arty	(SS-43684P) Jasskaran Singh, AC
(SS-43646Y) Bhagwati Singh Rathore, AOC	(SS-43685X) Ajay Sharma, Sigs
(SS-43648K) Sanjay Kumar Singh, AC	(SS-43686A) Siddharth Vishwanathan, Inf
(SS-43649M) Karan Vijay Singh Shekhawat, AOC	(SS-43687H) Jyoti Prakash Sahoo, Engrs
(SS-43650F) Rajneesh Kumar Sharma, EME	(SS-43688L) Mohit Singh, Arty
(SS-43652M) Amit Trikha, Mech	(SS-43690H) Jathar Nilkanth Balasaheb, Inf
(SS-43653P) Bikash Thapa, Inf	(SS-43692N) Menon Praveen Kunhikannan, Engrs
(SS-43654X) Amrit Pal Singh Bhullar, AC	(SS-43693W) Manoj Singh Rautela, Inf
(SS-43655A) Rajat Sikhar Joshi, Inf	(SS-43694Y) Neeraj Khatri, Inf
(SS-43656H) Praveen Kumar, AOC	(SS-43695F) Ujjwal Singh Baghel, Arty
(SS-43657L) Kherde Ashish Sureshrao, AAD	(SS-43696K) Satchit Dixit, Arty
(SS-43658N) Vibek Tandan, Inf	(SS-43697M) Arundev Singh Pawar, Arty
(SS-43659W) Dinesh Kumar, ASC	(SS-43699X) Jadhav Abhineet Ujwalsing, Arty
	(SS-43701K) Abhishek Joshi, Arty
	(SS-43702M) M Rajavelu, Inf
	(SS-43704X) Binesh Kumar Singh, Sigs
	(SS-43705A) Gurpreet Singh, Arty

(SS-43706H) Yashbir Singh Panwar, Sigs	(SS-43752X) Nikhil Basnet, AVN
(SS-43708N) Varun Sangar, ASC	(SS-43753A) Amit Kumar Mishra, Inf
(SS-43709W) Md Munir Ahmed, Arty	(SS-43754H) Saurabh Dubey, ASC
(SS-43710L) Yashwant Singh Jadoun, Inf	(SS-43755L) Vijay Tomar, Inf
(SS-43711N) Koushik S, AVN	(SS-43756N) Puneet Sharma, Inf
(SS-43712W) Vivek Chaudhary, EME	(SS-43757W) Ankit Bakshi, Mech
(SS-43713Y) Mohit Gulia, Inf	(SS-43758Y) S Venkata Krishnan, Mech
(SS-43714F) D Shiv Sharma, Inf	(SS-43759F) Dhaka Naveen Kumar, Arty
(SS-43715K) Ajay Kumar, EME	(SS-43760W) Abhishek Kumar Singh, AOC
(SS-43716M) Sohaldip Singh, EME	(SS-43761Y) Tokivi, Inf
(SS-43717P) Konjengbam Joychandra Meetei, Arty	(SS-43763K) Sukhwinder Singh, Inf
(SS-43718X) Nikhil Arora, Mech	(SS-43764M) Gaurav Mankotia, Arty
(SS-43719A) Vishwesh Sridhar, Inf	(SS-43765P) Imroz Sandhu, Inf
(SS-43720P) Lairenlakpam Rambo Singh, ASC	(SS-43766X) Abhishek, AOC
(SS-43721X) Ajay Singh, Int	(SS-43768H) Jagan Nath Mishra, Inf
(SS-43722A) Gaurav Kumar Gautam, Sigs	(SS-43769L) Souvik Santra, Inf
(SS-43723H) Shamsheer Singh, Inf	(SS-43770A) Mishra Anoopkumar Ramesh, Engrs
(SS-43725N) Aman Inder Singh Riar, Arty	(SS-43771H) Jasjit Singh Bajwa, Arty
(SS-43726W) Heera Thakur, Arty	(SS-43773N) Sreejith CG, Sigs
(SS-43728F) Dushyant Singh, Arty	(SS-43774W) Punde Yashdeep Deepak, Arty
(SS-43729K) Shrinath Shukla, Inf	(SS-43775Y) Surender Singh, AC
(SS-43730Y) Gajendra Patil, Inf	(SS-43776F) Jay Prakash Mishra, AOC
(SS-43731F) Abhinav Jolly, Arty	(SS-43777K) Achal Ravi Gladson Khalkho, Inf
(SS-43732K) Vivek Singh, AOC	(SS-43778M) Suraj Singh, ASC
(SS-43733M) Santosh Narayanan Mani, Inf	(SS-43779P) Aman Singh, AC
(SS-43735X) Swapnesh Suryakant Koli, Engrs	
(SS-43736A) Sudhir Kumar, AC	
(SS-43737H) Vivek S Nair, AVN	
(SS-43738L) Anurag Mishra, Arty	
(SS-43739N) N Yanrenthung Yanthan, Inf	
(SS-43740H) Rakesh Dalal, AAD	
(SS-43741L) Rana Shivam Singh, Inf	
(SS-43742N) Sameer Anurag, Inf	
(SS-43743W) Ashish Choubey, Inf	
(SS-43744Y) Kuljit Singh, AC	
(SS-43745F) Pawan Kumar, Inf	
(SS-43749X) Paramvir Khatri, Inf	
(SS-43750M) Ajay Kumar Kaushik, AAD	
(SS-43751P) Ashish Pahal, Arty	

The undermentioned six Officers of SSCW (Tech)-03 course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 for SSCOs (Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 20 Mar 2010. They have also been granted two years ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 22 Mar 2008 under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No. 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92):—

SS No., Name and Arm/Service
(SS-43938F) Jyoti Khanduri, Sigs
(SS-43940Y) Jingy Joseph, EME
(SS-43941F) Nidhi Dhanania, EME

(SS-43943M) Divya Puri, Sigs

(SS-43945X) Sandhya Nair, Sigs

The undermentioned Officers of SSC(NT)-87 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 21 Mar 2009. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of 10 years wef 21 Mar 2009 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt. 20 Jul 2006:—

Inder Kumar Gurung (SS-43371W), Inf with seniority next below the Lt Gagan Deep Singh (SS-43368W), Inf, Deepak Chander Ganola (SS-43380X), Inf with seniority next below the Lt Jabbar Jung Singh Kang (SS-43379H), Inf, Amit Dubey (SS-43401H), Inf with seniority next below the Lt Rahul Beotra (SS-43400A), Sigs, Vakhong David Thotngam (SS-43440F), Inf with seniority next below the Lt Sunny Vivek (SS-43439M), Inf and Bhuvan Shah (SS-43467Y), Mech with seniority next below the Lt Gaurav Singh Tewatia (SS-43466W), Inf whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence notification published on 20 Feb 2010.

The undermentioned 81 Officers of SSC(NT)-89 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 20 Mar 2010. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 20 Mar 2010 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

SS Number, Name and Arm/Service

(SS-43828M) Bikram Jeet, Inf

(SS-43829P) Pankaj Kumar Yadava, AVN

(SS-43830K) Pankaj Balauria, AC

(SS-43831M) Varinder Singh, AOC

(SS-43833X) Piyush Kumar Pandey, Mech

(SS-43835H) Terance P Gonsalvez, Inf

(SS-43837N) Munish Verma, Inf

(SS-43838W) Mohanapriyan T, Arty

(SS-43839Y) Paras Samant, Arty

(SS-43840N) Subhash Chand, Inf

(SS-43841W) Madhur Upadhyay, Engr

(SS-43847X) Parmjeet Singh, EME

(SS-43848A) Kumar Aatish Shashi, Inf

(SS-43852H) M E Srinidhi, Arty

(SS-43853L) Akash Sharma, Inf

(SS-43854N) Jayakrishna S, Arty

(SS-43856Y) Panmei Kabiphun, Inf

(SS-43858K) Virendra Singh Nathawat, AC

(SS-43860F) Jagannath Paudyel, Inf

(SS-43862M) Shameer M S, Sigs

(SS-43863P) Abhinav Kumar, AAD

(SS-43864X) Archit Verdia, Arty

(SS-43866H) Shivendra Mani Tripathi, AOC

(SS-43867L) Karan Singh Chib, Inf

(SS-43868N) Sachin Dilip Pawar, Inf

(SS-43869W) Vinkal Prashar, Arty

(SS-43871N) Sundeep Kumar, Engr

(SS-43873Y) Nilesh Kewal Suryawanshi, Engr

(SS-43874F) K P Rajil Premrajan, EME

(SS-43877P) Nitin Sharma, Arty

(SS-43878X) Ramandeep Singh Dhanjal, Inf

(SS-43879A) Thakur Nitinkishor, AVN

(SS-43880P) Kunal A Sethi, AC

(SS-43881X) Mithilesh Kumar Upadhyay, ASC

(SS-43882A) Sachidanand Dwivedi, AAD

(SS-43885N) Harinam Singh, ASC

(SS-43888F) Vishva Deep Singh, Inf

(SS-43889K) Jai Dutt Bhatt, Arty

(SS-43890Y) Arun Rajan, Arty

(SS-43891F) Vincent V Khiangte, Inf

(SS-43892K) Atul Sharma, Inf

(SS-43893M) Anup Kumar Chetri, Inf

(SS-43894P) Pradeep Kumar, EME

(SS-43896A) Gangadhar Sai K, Inf

(SS-43897H) Mukesh Kumar, Inf

(SS-43898L) Gaurav Chamoli, EME

(SS-43899N) Kamaljeet Singh, Arty

(SS-43901A) Anshul Bisht, Inf

(SS-43902H) Abhijeet Singh Rathod, Arty

(SS-43903L) Patil Prahlad, Arty

(SS-43904N) Alpesh Singh, AVN

(SS-43907F) Vikas Pandey, AVN

(SS-43908K) Pankaj Kumar Singh, Inf

(SS-43910F) Ishwar Pal, Inf	(SS-43846P) Savita Garhwal, AVN
(SS-43911K) Ravindra Singh Shekhawat, Inf	(SS-43855W) Shipali Shahi, ASC
(SS-43912M) Pardeep Sharma, Inf	(SS-43857F) Deepti Pandey, ASC
(SS-43914X) Aman Rathore, Sigs	(SS-43865A) Monika Mall, ASC
(SS-43915A) Wasim Feroz, Arty	(SS-43872W) Sneiha Gurung, AOC
(SS-43916H) Sunny Kumar Sangria, Inf	(SS-43886W) Nidhi, ASC
(SS-43917L) Anuj Kumar, ASC	(SS-43900X) Kritika Kanwal, ASC
(SS-43919W) Aashish Chauhan, Arty	(SS-43906Y) Shruti Kirti Raghav, ASC
(SS-43920L) Divesh Khanka, Inf	(SS-43909M) Nithi C J, Int
(SS-43921N) Vishan Pratap Singh Bhadauria, AC	(SS-43924F) Mercy Kimpui, AOC
(SS-43922W) Vikrant Rajee Bhle, AC	(SS-43927P) Anju Bala, AOC
(SS-43923Y) Kulkarni Akshay Nishikant, EME	(SS-43928X) Ritu Thapliyal, EME
(SS-43925K) Ravi Dutt Yadav, Inf	(SS-43933H) Shivani Singh, AEC
(SS-43926M) Arjun Visveshwaranram, Inf	
(SS-43929A) Varun Singh, Inf	
(SS-43931X) Ankur Pal, Inf	
(SS-43932A) Vijay Kumar Sharma, Engr	
(SS-43935N) Gagandeep Singh, AOC	
(SS-43937Y) Ajay Upadhyay, Engr	

RAHUL SHARMA  
Lt Col  
AMS-8B

AIR BRANCH

No. 726, dated 2nd December 2010—The President is pleased to confirm the undermentioned officer, who were granted Permanent Commission, wef from the date stated against the name :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Prabhash Mishra (29917) F(P), Fg Offr Sumit Shekhar (29933) F(P), Fg Offr Dev Bhushan Pandey (29950) F(P)—wef 21 Jun 2008

V M MARDIKAR  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

The undermentioned Lady Cadets of SSCW(NT)-01 Course has completed Special Short Commission (on probation) for six months commencing from 21 Mar 2009. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of 10 years wef 21 Mar 2009 under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

Dharna Sukla (SS-43369Y), ASC with seniority next below to Lt Deepika Chaturvedi (SS-43366L), ASC and Aditi Saxena (SS-43446H), ASC with seniority next below to Lt Nikita Anal (SS-43443P), ASC whose names are published in the Gazette of India on 13 Feb 2010.

The undermentioned 19 Officers of SSCW(NT)-03 Course has completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 20 Mar 2010. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of 10 years wef 20 Mar 2010 under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

SS Number, Name and Arm/Service
(SS-43832P) Ambika Jodha, AAD
(SS-43834A) Swarnima Thapliyal, EME
(SS-43843F) Akanksha Mishra, Int
(SS-43844K) Monika George, AOC

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

No. 727, dated 3rd December 2010—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

Col to Brig

Rank & Name, Pers Number and Date of Promotion

Brig Davinder Kaur (NR-15865K), 10 Jun 2010

Lt Col (Select) to Col

Col Rosaly Mathew (NR-16833N), 01 Sep 2009

Col KM Omana (NR-16882W), 01 Apr 2010

Col Padmini Mohan (NR-16940P), 01 May 2010

Col Nirmal Kapil Bata (NR-16151H), 15 May 2009

Col GP Rani (NR-16929M), 01 Jul 2010

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Lt Col M Mathew (NR-17674N), 01 Dec 2009

Lt Col P George Treasa (NR-17203A), 03 Aug 2009

Lt Col Lalitha Kumari VK (NR-17627W), 03 Aug 2009

Maj to Lt Col (TS)

Lt Col Lata Mandal (NR-19875L), 09 Jun 2009

Lt Col Elsamma John (NR-19876N), 09 Jun 2009

Lt Col Anita Sharma (NR-19880W), 09 Jun 2009

Lt Col Molly M L (NR-19881Y), 09 Jun 2009

Lt Col Sunita Vijayan (NR-19886X), 09 Jun 2009

Lt Col Suma Kumari (NR-19887A), 09 Jun 2009

Lt Col Karamjit Kaur (NR-19889L), 09 Jun 2009

Lt Col Saroja Kumari J (NR-19890A), 09 Jun 2009

Lt Col Ansamma P D (NR-19894W), 09 Jun 2009

Lt Col Elizabeth Varghese (NR-19896F), 09 Jun 2009

Lt Col Salenamma Thomas (NR-18974F), 20 Dec 2006

Lt Col Lucy Mathew (NR-18978X), 10 Jan 2007

Lt to Capt

Cap Ritu Dhiman (NR-21063W), 07 Jun 2005

Cap Vicky Dalal (NR-21065F), 07 Jun 2005

Cap Archana Roy (NR-21067M), 07 Jun 2005

Cap Prabha Shukla (NR-21071P), 07 Jun 2005

Cap Snigdha Pramanik (NR-21080W), 07 Jun 2005

Cap Deepa Mahar (NR-21081Y), 07 Jun 2005

Cap Priya Nair (NR-21082F), 07 Jun 2005

Cap Jyoti Sukhpal (NR-21086X), 07 Jun 2005

Cap Litty Sebastian (NR-21089L), 07 Jun 2005

Cap Janci Rani A (NR-21129F), 23 Nov 2006

Cap Smitha Ramachandran (NR-21139L), 23 Nov 2006

Cap S Selvarani (NR-21150K), 23 Nov 2006

Cap P Ranjeeta Devi (NR-21155H), 23 Nov 2006

Cap Anupama Chaudhary (NR-21160N), 23 Nov 2006

Cap R Ramalakshmi (NR-21165M), 02 Dec 2006

J K GREWAL  
Maj Gen  
Addl DGMNS

### ARMY BRANCH

No. 728, dated 3rd December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

### TERRITORIAL ARMY

### TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj H S Bhamra TA-42284 (Engr TA), 21 Aug 2010

Maj A K Singh TA-42285 (Engr TA), 25 Aug 2010

JAI RAJ  
Under Secy

### ARMY BRANCH

No. 729, dated 3rd December 2010—The President is pleased to make the promotions of undermentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names :—

### REGULAR ARMY

### PERMANENT COMMISSION

Lt Col to Col (Time Scale)

Lt Col V P Singh (MR-5213X), 15 May 2010

Lt Col Suman Deora (MR-5413N), 30 May 2010

Lt Col Ganga Sharan (MR-5281L), 01 Jun 2010

Lt Col R K Bhatia (MR-5210K), 05 Jun 2010

Lt Col M L Agarwal (MR-5275X), 10 Jun 2010

Lt Col Vasantha Kumar K (MR-5887P), 25 Jun 2010

Lt Col P K Tiwari (MR-5262A), 30 Jun 2010

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

No. 730, dated 6th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

### REGULAR ARMY

### PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name & date Arms/Services

(IC-48697) Rajesh Yadav, Sigs, 16 Dec 2004

RAHUL SHARMA  
Lt Col  
AMS-8B

No. 731, dated 6th December 2010—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to Major

Rank &amp; Name, Pers No. &amp; Date of Promotion

Maj Salenamma Thomas (NR-18974F), 20 Dec 1999

Maj Lucy Mathew (NR-18978X), 10 Jan 2000

(DoC-19 Dec 1986 Absent period 22 days wef 27 Apr 1998 to 18 May 1998 regularized by Automatic forfeiture of Pay & Allces for the period of absence)

J K GREWAL  
Maj Gen  
Addl DGMNS

## ARMY BRANCH

No. 732, dated 6th December 2010—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the dates mentioned against him/her :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Major

Sandeep Rana (MS-15387L) (MR-08969H), AMC, 22 Sep 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 04 Apr 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Rishi Sharma (MS-14864P) (MR-08970X), AMC, 09 Aug 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Rupsing Parmar (MS-15117W) (MR-08971A), AMC, 16 Dec 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 21 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Aijaz Ahmad (MR-08789A), 16 Jun 2009

To be Capt

Rishi Sharma (MS-14864P) (MR-08970X), AMC, 09 Aug 2005 On Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Shailendra Pratap Singh (MR-08857H), 11 Feb 2010

Saqib Yasin (MR-08867M), 11 Feb 2010

Rankeen Raj (MR-08869X), 11 Feb 2010

Anshuman Singh (MR-08889L), 11 Feb 2010

To be Surg Lt Cdr

Manish (MS-14895P) (MR-08967X), (75863R), AMC, 05 Oct 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 25 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Surg Lt

Sanjay Puri (MS-08598L) (75958F), AMC, 28 Jun 2008

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 733, dated 7th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## ARMY MEDICAL CORPS

To be Nb Subedar (Pharmacist)

Hav M Manivasagan (No. 13976186Y now JC-697396N), 20 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allces)

Hav R Arumugam (No. 13975682N now JC-696941A), 01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allces)

Hav Mukesh Chandra Bag (No. 13976758P now JC-697319Y), 24 Nov 2009\*

Hav Shiv Dev Singh (No. 13978055M now JC-696972A), 01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav Sajeendran KA (No. 13979899P now JC-697026N), 05 Sep 2009\*

Hav Sanil Kumar S (No. 13977210W now JC-697027W), 03 Sep 2009\*

Hav Santhosh Kumar R (No. 13977877X now JC-697024H), 01 Sep 2009\*

Hav GH Mohd Bhat (No. 13977315A now JC-697075W),  
04 Sep 2009\*

Hav Sundaram Nayak (No. 13979927W now JC-697025L),  
01 Sep 2009\*

Hav Ram Karan (No. 13980005A now JC-697028Y), 07 Sep  
2009\*

Hav Machaiah MA (No. 13978418L now JC-697076Y),  
19 Oct 2009\*

Hav Mahesh Singh (No. 13980382W now JC-697173W),  
03 Nov 2009\*

Hav Vijay Shankar Tiwari (No. 13980433Y now JC-697077F),  
15 Oct 2009\*

Hav M Venkateswara Reddy (No. 13979985A now JC-  
697174Y), 29 Oct 2009\*

Hav T Ajmal Ali Khan (No. 13965108F now JC-697059Y),  
20 Oct 2009\*

Hav Subhash Singh Yadaw (No. 13976101X now JC-  
697175F), 12 Nov 2009\*

Hav Rajesh Kumar (No. 13976262A now JC-697176K),  
30 Oct 2009\*

Hav Sunil Kumar Lal Das (No. 13976828H now JC-  
697177M), 31 Oct 2009\*

Hav R Pitchai Muthu (No. 13980012W now JC-697246X),  
26 Nov 2009\*

Hav Paramjeet Dhiman (No. 13980428N now JC-697078K),  
12 Oct 2009\*

Hav Om Prakash (No. 13980424X now JC-697139W),  
28 Oct 2009\*

Hav Bal Mukund Upadhyay (No. 13971999L now JC-  
697178P), 31 Oct 2009

Hav Ashok Kumar Das (No. 13976879W now JC-697179X),  
23 Nov 2009

Hav Mestri Shankar Madhukar (No. 13980475L now JC-  
697247A), 23 Nov 2009\*

Hav Jai Ram Kumawat (No. 13980512N now JC-697079M),  
12 Oct 2009\*

Hav Ranjeet Lal Jat (No. 13980514Y now JC-697180M),  
07 Nov 2009\*

Hav Parmanand Kumar (No. 13980535P now JC-697325M),  
17 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Lalan Kumar Thakur (No. 13980586H now JC-  
697181P), 28 Oct 2009\*

Hav Ompal Singh Poonia (No. 13980588N now JC-  
697182X), 18 Nov 2009\*

Hav Anil Kumar (No. 13980591N now JC-697183A),  
04 Nov 2009\*

Hav Salunkhe Ramachandra Ekanath (No. 13980864H now  
JC-697080F), 26 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Shiv Shankar (No. 13980961H now JC-697397W),  
23 Jan 2010\*

Hav Uttam Singh (No. 13980976L now JC-697644F), 13 Jan  
2010\*

Hav Md Nurul Amin (No. 13980418K now JC-697345A),  
26 Dec 2009\*

Hav Virender Singh (No. 13980592W now JC-697346H),  
29 Dec 2009\*

Hav Basir Khan Amir Khan (No. 13980550K now JC-  
697398Y), 27 Jan 2010\*

Hav Rajesh Kumar (No. 13980580F now JC-697347L), 19 Dec  
2009\*

Hav Sudesh Kumar (No. 13980939X now JC-697348N),  
23 Dec 2009\*

Hav Upendra Prakash Singh (No. 13980647P now JC-  
697426A), 22 Dec 2009\*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 13971159L now JC-  
697350L), 17 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov  
2009 without effect on pay and allces)

Hav B CH Prasad (No. 13977278X now JC-697449F),  
03 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2009 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Blood Transfusion Assistant)

Hav Jawanjal Sanjay Bapurao (No. 13961095X now JC-  
697161F), 29 Oct 2009\*

Hav Surendra Pal (No. 13961193X now JC-697123L), 29 Sep  
2009\*

Hav Umesh Kumar Singh (No. 13961451M now JC-  
697124N), 29 Sep 2009\*

Hav Rajender Singh (No. 13961458W now JC-697125W),  
22 Sep 2009\*

Hav Probir Banerjee (No. 13961539W now JC-697126Y),  
09 Oct 2009\*

Hav Satpal Singh (No. 13957678H now JC-697127F), 21 Oct  
2009\*



Hav Shanti De (No. 13962530N now JC-697162K), 13 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug 2009 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Laboratory Assistant)

Hav Ajay Kumar Upadhyay (No. 13960306H now JC-697082M), 22 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces)

Hav Parikchhit Singh (No. 13965051X now JC-697010H), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Hav Styawan Singh (No. 13965163X now JC-697083P), 01 Sep 2009\*

Hav Diwakar Pathak (No. 13965128P now JC-697031Y), 01 Sep 2009\*

Hav Tripathi Rajesh Kumar Kamla Prasad (No. 13964982P now JC-697184H), 11 Nov 2009\*

Hav Mahendra Pal (No. 13965131P now JC-697353Y), 22 Dec 2009\*

Hav Shinde Bharat Jaywant (No. 13965428W now JC-697084X), 22 Oct 2009\*

Hav P Eleangovan (No. 13965640N now JC-697326P), 27 Nov 2009\*

Hav Bhosale Dilip Ganpati (No. 13965568H now JC-697085A), 21 Oct 2009\*

Hav Narendra Singh Bhandari (No. 13965537H now JC-697086H), 24 Oct 2009\*

Hav Y Sambath (No. 13965610W now JC-697087L), 15 Oct 2009\*

Hav Sunil Kumar (No. 13965660F now JC-697327X), 10 Oct 2009\*

Hav Trilok Singh (No. 13965703L now JC-697185L), 10 Nov 2009\*

Hav Gauri Shankar Roy (No. 13965774M now JC-697088N), 10 Oct 2009\*

Hav Cutino Albert Alex (No. 13966074L now JC-697081K), 21 Oct 2009\*

Hav B Damodara Rao (No. 13966207W now JC-697386K), 12 Oct 2009\*

Hav Chandran N (No. 13966584M now JC-697089W), 10 Oct 2009\*

Hav Awadesh Kumar Tiwari (No. 13966720X now JC-697186N), 06 Nov 2009\*

Hav Ashok Kumar (No. 13965870F now JC-697090L), 21 Oct 2009\*

Hav Nagarajan P (No. 13967075A now JC-697091N), 21 Oct 2009\*

Hav Naresh Kumar Tewetia (No. 13967176N now JC-697092W), 14 Oct 2009\*

Hav Nand Kumar (No. 13967394M now JC-697447W), 09 Oct 2009\*

Hav S John Kennedy (No. 13967511M now JC-697093Y), 14 Oct 2009\*

Hav Raghuvir Singh (No. 13967447A now JC-697094F), 12 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav S Ponnarasu (No. 13960937L now JC-697187W), 03 Nov 2009\*

Hav Bijendra Singh (No. 13967454W now JC-697388P), 20 Oct 2009\*

Hav Subhash Singh Panwar (No. 13967561X now JC-697095K), 20 Oct 2009\*

Hav Polla Sivaraja (No. 13967626A now JC-697188Y), 12 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ballava Tripathy (No. 13967701Y now JC-697354F), 22 Dec 2009\*

Hav Debendra Nath Pradhan (No. 13967766M now JC-697450W), 26 Dec 2009\*

Hav Sahadeb Nayak (No. 13967770P now JC-697355K), 22 Dec 2009\*

Hav Dindayal Singh (No. 13968018L now JC-697356M), 14 Dec 2009\*

Hav S Babu (No. 13968209A now JC-697399F), 20 Jan 2010\*

Hav Mohmd Tariq Saiddiqui (No. 13968290X now JC-697357P), 22 Dec 2009\*

Hav Ashok Kumar (No. 13968285M now JC-697358X), 21 Dec 2009\*

Hav Ravindra Kumar (No. 13968284K now JC-697359A), 21 Dec 2009\*

Hav Kumar Pal Singh (No. 13968473N now JC-697400L), 06 Jan 2010\*

Hav Ratneshwar Dwivedi (No. 13968465P now JC-697360P), 24 Dec 2009\*

Hav Tandle Dayaram Pundlik (No. 13968581X now JC-697401N), 14 Jan 2010\*

Hav Prem Singh (No. 13968624F now JC-697402W),  
29 Jan 2010\*

Hav Pawan Kumar (No. 13968971A now JC-697361X),  
18 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Madhusoodanan Pillay N (No. 13969038L now JC-  
697362A), 01 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Operation Room Assistant)

Hav Suresh Chandra Singh (No. 13965027F now JC-  
697943L), 09 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Jitendra Kumar (No. 13966611L now JC-696967P),  
11 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Yogendra Prasad (No. 13966610H now JC-696944N),  
01 Jun 2009\*

Hav Shiv Kumar Sah (No. 13961271K now JC-696968X),  
30 Jun 2009\*

Hav Zafar Ali (No. 13966646F now JC-696945W), 01 Jun  
2009\*

Hav Jagdish Chandra Dhankhola (No. 13966643N now  
JC-696946Y), 10 Jun 2009\*

Hav Ghag Vilas Atmaram (No. 13966709Y now JC-696947F),  
09 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Deepak Kumar (No. 13966739W now JC-696969A),  
01 Jul 2009\*

Hav U Balamurugan (No. 13966873F now JC-696970P),  
04 Jul 2009\*

Hav Gonesh Prasad Kairi (No. 13967093H now JC-  
696971X), 01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009  
without effect on pay and allces)

Hav Rajagopalan M (No. 13967145N now JC-697029F),  
01 Sep 2009\*

Hav Ashwani Kumar (No. 13967132W now JC-697030W),  
01 Sep 2009\*

Hav Umesh Singh Rana (No. 13967292W now JC-  
697097P), 26 Sep 2009\*

Hav Brajendra Kumar Pandey (No. 13967328K now JC-  
697098X), 15 Sep 2009\*

Hav Ram Bihari (No. 13967409K now JC-697099A), 03 Oct  
2009\*

Hav Dorle Ajay Trimbak (No. 13967522Y now JC-697100K),  
30 Sep 2009\*

Hav Nimbalkar Ajitrao Gunaji Rao (No. 13967504W now  
JC-697101M), 03 Oct 2009\*

Hav S Mari Muthu (No. 13967536Y now JC-697102P),  
09 Oct 2009\*

Hav Bala Datt (No. 13967465H now JC-697103X), 30 Sep  
2009\*

Hav Pooran Chandra Joshi (No. 13967463X now JC-  
697104A), 07 Oct 2009\*

Hav Rajendra Kumar (No. 13967559A now JC-697105H),  
29 Sep 2009\*

Hav Ashfak Ahamad (No. 13967565N now JC-697167H),  
22 Oct 2009\*

Hav Rajesh Kumar (No. 13967583W now JC-697106L),  
30 Sep 2009\*

Hav Birbal (No. 13967607P now JC-697107N), 26 Sep  
2009\*

Hav Dipak Midday (No. 13967748K now JC-697108W),  
01 Oct 2009\*

Hav Amulya Kumar Mohanty (No. 13967810L now JC-  
697109Y), 03 Oct 2009\*

Hav Devi Datt (No. 13966622X now JC-697110N), 01 Oct  
2009\*

Hav Ashwani Kumar (No. 13968019N now JC-697111W),  
03 Oct 2009\*

Hav Umakanta Nayak (No. 13968043K now JC-697383W),  
01 Oct 2009\*

Hav Salokhe Sukhadeo Sadashiv (No. 13968117N now  
JC-697112Y), 03 Oct 2009\*

Hav Navale Nitin Namdeo (No. 13968438L now JC-  
697113F), 01 Oct 2009\*

Hav Shesh nath Giri (No. 13968479P now JC-697114K),  
26 Sep 2009\*

Hav Pawan Kumr Judus (No. 13967608X now JC-  
697115M), 08 Oct 2009\*

Hav Sikander Singh (No. 13966843W now JC-697116P),  
01 Oct 2009\*

Hav Satywan Singh (No. 13968474W now JC-697117X),  
06 Oct 2009\*

Hav Angaj Narayan Dadu (No. 13968518H now JC-  
697118A), 14 Oct 2009\*

Hav Wankhare Dhuraji Kalu (No. 13968584L now JC-697119H), 10 Oct 2009\*

Hav Rajan Singh (No. 13968685Y now JC-697120X), 10 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Chander Pal (No. 13967603Y now JC-697385F), 14 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Bhagwan Singh Punia (No. 13968677A now JC-697384Y), 03 Nov 2009\*

Hav More Shivaji Sham Rao (No. 13968778N now JC-697169N), 10 Nov 2009\*

Hav Patil Suresh Vithal (No. 13968853M now JC-697170H), 05 Nov 2009\*

Hav Gautam Paul (No. 13969244P now JC-697171L), 16 Nov 2009\*

Hav Hushnak Singh (No. 13969950W now JC-697172N), 30 Oct 2009\*

Hav Gobinda Chandra Mallick (No. 13969778A now JC-697121A), 10 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Suresh Kumar Yadav (No. 13970155H now JC-697351N), 21 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allces)

To be Nb Subedar (Health Assistant)

Hav Lomash Kumar (No. 13965042W now JC-697132M), 18 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Dec 2009 without effect on pay and allces)

Hav Sunil Kumar SP (No. 13970456M now JC-697008L), 01 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allces)

Hav Murtaza Ali Ahmad (No. 13976284Y now JC-697133P), 18 Sep 2009\*

Hav Shaik Masumall (No. 13965605L now JC-697134X), 12 Oct 2009\*

Hav Manoj Kumar Singh (No. 13974513A now JC-697135A), 19 Sep 2009\*

Hav Raju T (No. 13976668N now JC-697324K), 19 Sep 2009\*

Hav Chalake Ashok Chandru (No. 13976168W now JC-697136H), 24 Sep 2009\*

Hav Dhirendra Kumar Senapati (No. 13970764M now JC-697137L), 19 Sep 2009\*

Hav Balwan (No. 13963515L now JC-697163M), 07 Nov 2009\*

Hav Nandjee Singh (No. 13975172M now JC-697164P), 31 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Hav Rajesh Kumar (No. 13977687L now JC-697165X), 31 Oct 2009\*

Hav Debananda Das (No. 13968276L now JC-697138N), 26 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav MD Nazimuddin (No. 13976894L now JC-697166A), 16 Nov 2009\*

Hav Kamal Deo Sharma (No. 13976874X now JC-697212K), 10 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Tandale Bharat Govind (No. 13964506W now JC-697414L), 11 Jan 2010\*

Hav Sajith Kumar S (No. 13977860K now JC-697367Y), 04 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov 2009 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (X-Ray Assistant)

Hav Mohanan T (No. 13970531L now JC-697403Y), 29 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces)

Hav Raghuwar Singh (No. 13974649K now JC-696965K), 16 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allces)

Hav Susanta pal (No. 13976869M now JC-697245P), 01 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Mathew Kurian (No. 13976713P now JC-696966M), 01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav Sunil Meikap (No. 13976214A now JC-697009N),  
01 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Madhu K (No. 13977858M now JC-697060N), 16 Oct  
2009\*

Hav Prasad Kumar M (No. 13977986K now JC-697061W),  
16 Oct 2009\*

Hav Ashwani Kumar (No. 13978628L now JC-697062y),  
16 Oct 2009\*

Hav Biswajit Mishra (No. 13979905X now JC-697063F),  
16 Oct 2009\*

Hav Prakash Patil (No. 13977976A now JC-697064K),  
16 Oct 2009\*

Hav Amitava Dey (No. 13981140A now JC-697065M),  
16 Oct 2009\*

Hav Aftab Alam (No. 13981205H now JC-697066P), 16 Oct  
2009\*

Hav Surendra Singh Udawat (No. 13981182M now  
JC-697067X), 16 Oct 2009\*

Hav M M Navas (No. 13981264P now JC-697448Y),  
06 Nov 2009\*

Hav Girish Chandra (No. 13981417N now JC-697068A),  
16 Oct 2009\*

Hav Satish Chandra (No. 13982340H now JC-697069H),  
16 Oct 2009\*

Hav Potale Dnyaneshwar Prabhu (No. 13982649Y now  
JC-697189F), 17 Nov 2009\*

Hav Manoj P Kurup (No. 13982157A now JC-697070X),  
16 Oct 2009\*

Hav Saji AG (No. 13981890Y now JC-697190W), 04 Nov  
2009\*

Hav Anil K (No. 13977992X now JC-697328A), 21 Oct  
2009\*

Hav Dilawar Singh (No. 13983820Y now JC-697390M),  
21 Oct 2009\*

Hav Rajinder (No. 13983940X now JC-697191Y), 02 Nov  
2009\*

Hav Mannava Satya Sai Babu (No. 13984071A now  
JC-697071A), 23 Oct 2009\*

Hav Pradeepan C (No. 13982498L now JC-697072H),  
16 Oct 2009\*

Hav Rajender Kumar Sharma (No. 13984084X now  
JC-697389X), 27 Oct 2009\*

Hav More Vrashiket Baliram (No. 13984255Y now  
JC-697192F), 04 Nov 2009\*

Hav Sibaram Nahaka (No. 13984454M now JC-697073L),  
16 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Baiju Panicker (No. 13984582K now JC-697193K),  
20 Nov 2009\*

Hav Ajith Kumar VG (No. 13981891F now JC-697194M),  
03 Nov 2009\*

Hav Umesh Mathad (No. 13984743F now JC-697195P),  
14 Nov 2009\*

Hav Narayan Singh (No. 13985074A now JC-697196X),  
02 Nov 2009\*

Hav Patil Subhash Vishnu (No. 13985801M now  
JC-697197A), 13 Nov 2009\*

Hav Ranveer Singh Yadav (No. 13986019W now  
JC-697198H), 29 Oct 2009\*

Hav Karnee Ram Badsra (No. 13985293F now JC-697074N),  
23 Oct 2009\*

Hav Shaju EK (No. 13986046A now JC-697329H), 01 Jan  
2010\*

Hav Animalla Balabrahman (No. 13986118Y now  
JC-697330X), 30 Nov 2009\*

Hav Renati Venkata Subba Rayudu (No. 13986954H now  
JC-697199L), 04 Nov 2009\*

Hav Kamlesh Kumr Tripathi (No. 13983708M now  
JC-697200P), 05 Nov 2009\*

Hav Suresh V (No. 13986052N now JC-697168L), 16 Nov  
2009\*

Hav Salunke Babu Baba (No. 13986810A now  
JC-697331A), 21 Dec 2009\*

Hav Deo Kumar Singh (No. 13984644Y now JC-697201X),  
14 Nov 2009\*

Hav Sachinder Kumar (No. 13985568K now JC-697202A),  
31 Oct 2009\*

Hav D Asim Sheriff (No. 13986947M now JC-697203H),  
07 Nov 2009\*

Hav Rajesh Kumar (No. 13986873H now JC-697204L),  
13 Nov 2009\*

Hav Lukram Keshi Singh (No. 13987435M now  
JC-697205N), 20 Nov 2009\*

Hav Jeewan Singh (No. 13987731X now JC-697206W),  
17 Nov 2009\*

Hav Shiju Thomas (No. 13987753W now JC-697207Y),  
08 Nov 2009\*

Hav NB Ramakrishnan (No. 13987963W now JC-697391P),  
20 Jan 2010\*

Hav Pullur Venu Murthy (No. 13987990A now JC-697332H), 24 Nov 2009\*

Hav V Seenivasagan (No. 13988104X now JC-697208F), 06 Nov 2009\*

Hav S Mrimuthu (No. 13988105A now JC-697209K), 16 Nov 2009\*

Hav Chintada Shrinivasa Rao (No. 13988090H now JC-697392X), 24 Dec 2009\*

Hav Hem Chandra Joshi (No. 13988117P now JC-697210Y), 14 Nov 2009\*

Hav Rakesh Kumar (No. 13988052M now JC-697333L), 31 Dec 2009\*

Hav Surendra Kumar (No. 13988001Y now JC-697393A), 10 Jan 2010\*

Hav Naveen Rawat (No. 13988022P now JC-697394H), 03 Nov 2009\*

Hav Bhupendra Singh (No. 13988122A now JC-697211F), 17 Nov 2009\*

Hav Narsingh Sinha (No. 13988190N now JC-697395L), 05 Nov 2009\*

Hav Narayan Ram Jat (No. 13988314X now JC-697334N), 16 Dec 2009\*

Hav Ranjan Kumar (No. 13988463L now JC-697335W), 28 Dec 2009\*

Hav C Kalaichelvam (No. 13988578Y now JC-697336Y), 12 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Yogambar Singh (No. 13988575L now JC-697404F), 20 Jan 2010\*

Hav Birendra Prasad Roy (No. 13988632F now JC-697363H), 26 Dec 2009\*

Hav M Sajan Mathew (No. 13988787W now JC-697451Y), 29 Dec 2009\*

Hav Lakshmipathy SR (No. 13988946H now JC-697405K), 14 Jan 2010\*

Hav Jagvir Singh Rawat (No. 13989517N now JC-697406M), 21 Jan 2010\*

Hav Shailendra Kumar Mishra (No. 13989782K now JC-697407P), 15 Jan 2010\*

Hav Magar Prashnat Dattatraya (No. 13989833M now JC-697408X), 20 Jan 2010\*

Hav Mohd Yousuf Shah (No. 13989912F now JC-697452F), 08 Feb 2010\*

Hav Ashok Kumar Gangal (No. 13990298K now JC-697444H), 21 Jan 2010\*

Hav Saravanan S (No. 13990710M now JC-697409A), 14 Jan 2010\*

Hav Saroja Ranjan Pati (No. 13991040H now JC-697364L), 26 Dec 2009\*

Hav Sajeevan KT (No. 13991070A now JC-697410F), 21 Jan 2010\*

Hav Ashok Kumar (No. 13991157F now JC-697411X), 14 Jan 2010\*

Hav Ram Chandra (No. 13991809P now JC-697365N), 24 Dec 2009\*

Hav Abhilash GT (No. 13990211X now JC-697412A), 23 Jan 2010\*

Hav M Chandra Sekaran (No. 13993480P now JC-697413H), 25 Jan 2010\*

Hav Khayali Ram Yadav (No. 13986190P now JC-697366W), 31 Dec 2009\*

Hav Dharampal Singh (No. 13988574H now JC-697446N), 11 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov 2009 without effect on pay and allces)

Hav Indrajit Singh (No. 13989744N now JC-697465Y), 18 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Psychiatric Nursing Assistant)

Hav Umesh Prasad (No. 13957942L now JC-696942H), 02 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ram Murti (No. 13959684P now JC-697023A), 03 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Hav Umroa Singh (No. 13961632H now JC-697382N), 03 Nov 2009\*

Hav Rajvir Singh (No. 13961838P now JC-697131K), 26 Oct 2009\*

Hav Sajeevan Nair C (No. 13962213M now JC-697157Y), 13 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ahok Kumar Jha (No. 13963377P now JC-697445L), 09 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

To be Substantive Nb Sub  
(Dental Operation Room Assistant)

Hav Dharam Pal (No. 13965552X now JC-697320N),  
01 Aug 2009\*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 13965586L now  
JC-697122H), 22 Oct 2009\*

Hav Amar Singh (No. 13965658K now JC-697321W),  
30 Nov 2009\*

Hav Krishan Kumar Yadav (No. 13965814H now  
JC-697159K), 29 Oct 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allces).

Hav Pranab Kumar Kundu (No. 13965938X now  
JC-697160Y), 12 Nov 2009\*

Hav Rup Lal (No. 13965977W now JC-697323F), 21 Nov  
2009\*

Hav Surender Singh (No. 13965994W now JC-697337F),  
15 Dec 2009\*

Hav Gadi Appa Rao (No. 13966210W now JC-697340F),  
14 Dec 2009\*

Hav Shiv Narayan Patidar (No. 13966645Y now  
JC-697341K), 14 Dec 2009\*

Hav Mahendra Pal Singh (No. 13966633K now  
JC-697342M), 10 Dec 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allces).

To be Nb Sub (Dental Technician)

Hav Chandra Ram (No. 13983866F now JC-697158F),  
17 Nov 2009\*

Hav Haridas KVK (No. 13984162K now JC-697343P),  
01 Dec 2009\*

Hav B Suresh (No. 13986828W now JC-697344X), 30 Nov  
2009\*

Hav Ranbir Singh (No. 13987185W now JC-697454M),  
09 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allces).

To be Nb Sub (Special Treatment Assistant)

Hav Tej Pal Singh (No. 13957531M now JC-697352W),  
17 Dec 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009  
without effect on pay and allces).

Hav Indra Singh (No. 13957516X now JC-697415N),  
11 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allces).

To be Nb Sub (Physiotherapy Assistant)

Hav Mohana Krishnan K (No. 13965751L now  
JC-697128K), 01 Oct 2009\*

Hav Sukbir Subba (No. 13965777A now JC-697387M),  
08 Oct 2009\*

Hav Ingale Dhanaji Nivarutti (No. 13966025H now  
JC-697129M), 30 Sep 2009\*

Hav Saugata Chakraborty (No. 13966010A now  
JC-697130F), 24 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug  
2009 without effect on pay and allces)

Hav VMR Karthikeyan (No. 13966171H now JC-697322Y),  
01 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Yesuraja Thurai P (No. 13966186L now JC-697368F),  
07 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (Dental Hyginist)

Hav Vir Narayan Singh (No. 13962460A now JC-697096M),  
26 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Prakash Kumar PB (No. 13963278M now  
JC-697213M), 24 Nov 2009\*

Hav Ramanand Mahto (No. 13963366H now JC-697338K),  
10 Dec 2009\*

Hav Aparesh Chandra Saha (No. 13964179W now  
JC-697214P), 19 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Sep  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Krishna Pal Singh (No. 13964214N now JC-697339M),  
03 Dec 2009\*

Hav Rakesh Kumar Singh (No. 13964436H now  
JC-697453K), 17 Feb 2010\*

Hav Niranjan Kumar Singh (No. 13964606F now  
JC-697416W), 25 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2009 without effect on pay and allces)

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 13964600A now  
JC-697417Y), 20 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allces)

KULWANT RANA  
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR  
BRANCH

No. 734, dated 07th December 2010—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion :—

Hav to be Nb Sub SKT

Lokanath Tripathi (No. 14613892H now JC-765014A), 01 Jul 2010

Damodharan KM (No. 14689396A now JC-765167K), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Sanjeev Kumar (No. 14600304L now JC-765170K), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Indra Singh Kassana (No. 14587370M now JC-765171M), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Alok Kumar Das (No. 14613173K now JC-765174A), 01 Aug 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Puran Chandra (No. 14610296L now JC-765033L), 01 Jul 2010

B Simadri Reddy (No. 14611253H now JC-765037F), 01 Jul 2010

Pramod Kumar Singh (No. 14611321L now JC-765040F), 01 Jul 2010

Pramod KV (No. 14611451N now JC-765084Y), 01 Jul 2010

Vijender Singh (No. 14612002L now JC-765085F), 01 Jul 2010

Bindhyachal Yadav (No. 14618776K now JC-765092X), 01 Jul 2010

Jadhav Ananda Dattu (No. 14619169X now JC-765095L), 01 Jul 2010

Ajith K (No. 14619214Y now JC-765135F), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVF (I&P)

Ratan Lal (No. 14630326Y now JC-765050L), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (REC)

Pankaj Kumar Nandi (No. 14570385Y now JC-765065N), 01 Jul 2010

Sunil Kumar Singh (No. 14578882X now JC-765066W), 01 Jul 2010

Mukhtar Singh (No. 14581820H now JC-765068F), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Mahendra Singh Gurjar (No. 14569837K now JC-765074P), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Net Working

Swaran Singh (No. 14616090K now JC-765102W), 01 Jul 2010

Suresh Saraswat (No. 14616103W now JC-765103Y), 01 Jul 2010

Sanjeevan Kuniyil (No. 14615174L now JC-765107P), 01 Jul 2010

Ramanayya Pinninti (No. 14616449A now JC-765110P), 05 Jul 2010/01 Jul 2010\*

Manoj Kumar Singh (No. 14618029Y now JC-765111X), 01 Jul 2010

Suna Narshi (No. 14602226X now JC-765112A), 01 Jul 2010

Chandra Bhan Singh (No. 14616395K now JC-765114L), 01 Jul 2010

Rajinder Singh (No. 14618100F now JC-765115N), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

JT Alphonse Broton (No. 14622595W now JC-765122K), 30 Jul 2010/01 Jul 2010\*

Rai Rammangal Ravindra (No. 14622598K now JC-765123M), 03 Jul 2010/01 Jul 2010\*

Basudev Pal (No. 14623093A now JC-765131L), 01 Jul 2010

Krushna Chandra Swain (No. 14623135F now JC-765132N), 01 Jul 2010

Rohitash Kumar Karawasra (No. 14623165Y now JC-765134Y), 01 Jul 2010

Pawan Singh (No. 14623802K now JC-765139X), 03 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

Kamta Prasad (No. 14619431P now JC-765141P), 21 Jul 2010/23 May 2010\*

Niranjan Behera (No. 14623737P now JC-765143A), 12 Jul 2010/01 Jul 2010\*

Hav to be Nb Sub Artzn Metallurgy

Mishri Lal Yadav (No. 14587596X now JC-765155P), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Tech Opto Elect

Rishi Pal (No. 14576247N now JC-765157A), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Tech Radar

Priya Brata Mahato (No. 14575888N now JC-765159L), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Tech SA

Ajab Singh (No. 14594921P now JC-765165Y), 01 Aug 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Binodi Pharkade (No. 14621631K now JC-765185M), 01 Aug 2010

M Ramesh (No. 14621645K now JC-765186P), 01 Aug 2010

To be Sub Master Tech B Veh

Sadanandan P (JC-759043Y), 08 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Shaik Khaja Vali (JC-759304F), 01 Jul 2010

Bibrosi Kumar Nayak (JC-759317Y), 01 Jul 2010

Chhigan Lal (JC-759341P), 09 Jul 2010/01 Jul 2010\*

Babulal Saragra (JC-759280H), 01 Jul 2010

Raj Kumar Singh (JC-759306M), 23 Jul 2010/01 Jul 2010\*

Ram Dular Prasad (JC-759358H), 01 Aug 2010

Shribhagwan Sharma (JC-759345L), 01 Aug 2010

Sonawane Ashok Rewaji (JC-759360A), 01 Aug 2010

Bhagwan Singh Yadav (JC-759354M), 01 Aug 2010

Praveen Jha (JC-759414W), 01 Aug 2010

Ashit Kumar Paul (JC-759353K), 01 Aug 2010

G C Senthil Kumar (JC-759350W), 01 Aug 2010

Lalit Kumar Sanklan (JC-759361H), 01 Aug 2010

Balbir Singh (JC-759352F), 01 Aug 2010

Patil Rohidas Laxman (JC-759351Y), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Udai Pal (JC-759343A), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Dalbir Singh (JC-759355P), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Sohan Pal Singh (JC-759362L), 06 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Darshan Singh (JC-759344H), 09 Aug 2010/01 Aug 2010\*

K Sundara Murthy (JC-759364W), 11 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Dawinder Singh (JC-759412L), 12 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Prem Singh (JC-759413N), 16 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Ajay Kumar Parida (JC-759411H), 17 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Manyala Harinarayana (JC-759359L), 19 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Ravish Kumar (JC-759357A), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

P C Puthiyoth (JC-759434K), 01 Sep 2010

Yogendra Singh (JC-759366F), 12 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Shio Narayan Prasad (JC-759346N), 07 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Gopal Chandra Das (JC-759522A), 01 Sep 2010

Umed Singh (JC-759365Y), 11 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Gayadher Mishra (JC-759297W), 08 Jul 2010/01 Jun 2010\*

To be Sub Clk (SD)

Man Singh (JC-759749N), 26 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Jadumani Lenka (JC-760148P), 01 Aug 2010

Gawali Gajanan Shamrao (JC-760304N), 01 Aug 2010

Choudhuri Behera (JC-760149X), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Kishore Chandra Pradhan (JC-760302H), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Asraph P (JC-760498F), 01 Sep 2010

Pramod Singh (JC-760378H), 02 Sep 2010/01 Sep 2010\*

Krishana Murthy L (JC-760303L), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Ramesh Chandra Mall (JC-760541X), 01 Sep 2010

To be Sub Tech Comm

Anand Singh Parihar (JC-762300W), 01 May 2010

Sheesh Pal (JC-763548M), 19 Aug 2010/01 Aug 2010

To be Sub Auto Elect B Veh

Chandrika Dutt Pandey (JC-763474H), 01 Aug 2010

To be Sub SKT

Suresh Chandra Sharma (JC-762229N), 01 Aug 2010

Minya Singh (JC-762236K), 01 Aug 2010

Anand Kumar Tiwari (JC-762235F), 01 Aug 2010

Subhash Chandra Yadav (JC-762230H), 01 Aug 2010

Thombare Babasaheb Ramchandra (JC-762234Y), 01 Aug 2010

Ram Kanwar Yadav (JC-762457W), 04 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Jacob Verghese (JC-762238P), 07 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Arvind Kumar Sinha (JC-762456N), 13 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Ram Lal Bhardwaj (JC-762591F), 01 Sep 2010

Mohan Chand (JC-762810X), 01 Sep 2010

To be Sub Tech SA

Shankar Prasad Yadav (JC-760721A), 01 Aug 2010

Jeeut Singh Kushwaha (JC-760372F), 01 Aug 2010

Ram Raj Maurya (JC-760370W), 03 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Ram Bali Roy (JC-760489A), 01 Aug 2010

To be Sub Master Tech (GCE)

Rajendra Singh Yadav (JC-759410A), 01 Aug 2010



## To be Sub DW

Prafulla Kumar Rout (JC-762472L), 01 Aug 2010  
 Hira (JC-762471H), 02 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Prem Kumar (JC-762474W), 07 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Prahalad Prasad Sah (JC-762473N), 12 Aug 2010/01 Aug 2010\*

## To be Sub Opr &amp; Dvr (Recovery)

Raihanul Haque (JC-755919P), 01 Aug 2010  
 Upen Chandra Gogoi (JC-756089W), 01 Sep 2010

## To be Sub RT (Pandit)

Manoj Kumar Pathak (JC-754407W), 01 Aug 2010

## To be Sub Master Tech Avn (Elect)

Ram Sewak (JC-760269W), 04 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Jag Mohan Singh (JC-760687L), 01 Sep 2010

## To be Sub Master Tech A Veh

K Murugesan (JC-759418M), 05 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Sasi M (JC-759419P), 12 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Arvind Prasad Singh (JC-759417K), 16 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Shayam Singh Negi (JC-759420K), 01 Sep 2010  
 Surendra Kumar Rout (JC-759427N), 01 Sep 2010  
 Sanjaya Kumar Satapathy (JC-759428W), 01 Sep 2010  
 Surendra Kumar (JC-759426L), 01 Sep 2010  
 Satendra Singh (JC-759431W), 01 Sep 2010  
 A Janaki Ram (JC-759433F), 01 Sep 2010  
 K Subramanyam (JC-759429Y), 01 Sep 2010  
 S Vijya Bhaskara Rao (JC-759424A), 01 Sep 2010

## To be Sub OPTO Elect

Bipul Chandra Das (JC-763855K), 08 Aug 2010/01 Aug 2010\*

## To be Sub Auto Tech B Veh

K Raman Swamy (JC-763736N), 09 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Amarjeet Singh (JC-762817F), 12 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Harpal Singh (JC-763719N), 13 Aug 2010/01 Aug 2010\*  
 Nirmal Kumar Sharma (JC-763715X), 13 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Shashi Bhushan Ray (JC-763717H), 13 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Raj Kumar Tiwari (JC-763815H), 16 Aug 2010/01 Aug 2010  
 Mahendra Singh Yadav (JC-763862A), 01 Sep 2010

## To be Sub Master Tech Elect

Virendra Kumar Yadav (JC-759349F), 09 Aug 2010/01 Aug 2010\*

## To be Sub Master Tech Comn

Purushottam Singh (JC-759436P), 13 Aug 2010/01 Aug 2010\*

## To be Sub Auto Tech Engr Eqpt

Anil Chhibber (JC-762538W), 13 Aug 2010/01 Aug 2010\*

## To be Sub Master Tech Avn (AEN)

Rajbir (JC-760265A), 13 Sep 2010/01 Sep 2010\*

## To be Sub Machinist

Ratna Kumaran K V (JC-760931A), 01 Sep 2010

\*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA  
 Under Secy

## AIR BRANCH

No. 735, dated 07th December 2010—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

## INDIAN AIR FORCE

## LGS BRANCH

## To be Substantive GP Capt

Rank, Name, No, Br and Date  
 GP Capt AK Benipuri (16037), LGS, 15 Oct 2008  
 GP Capt PN Nair (16798), LGS, 01 Feb 2009  
 GP Capt PK Singh (16855), LGS, 16 Mar 2009  
 GP Capt HS Kamal (16860), LGS, 23 Mar 2009  
 GP Capt M Baladitya (17230), LGS, 01 Jun 2009  
 GP Capt DK Singh (17232), LGS, 01 Jun 2009  
 GP Capt D Kumar (16854), LGS, 01 Jun 2009  
 GP Capt JK Pandey (17233), LGS, 01 Sep 2009  
 GP Capt KS Reddy (17774), LGS, 01 Sep 2009  
 GP Capt R Sharma (17785), LGS, 01 Oct 2009  
 GP Capt N Srivastava (17787), LGS, 01 Oct 2009  
 GP Capt B Paul (17791), LGS, 01 Nov 2009

AK SINGH  
 Dy Dir Per (Officer)-2B

No. 736, dated 8th December 2010—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

## INDIAN AIR FORCE

## Sq n Ldr to be Substantive WG Cdr

## SHORT SERVICE COMMISSION

## AE(L) BRANCH

Mrs Arti Vasdev (24155), Mrs Pallavi Bharade, (24150), Mrs Bornali Gogoi (24151), Mrs Kanchan Singh (24148)—wef 27 May 2009

## ADM BRANCH

Mrs U Shaligram (24114), Ms Bhavana Mehra (24116)—wef 29 Jun 2009

Mrs S Chouhan (23935), Mrs RK Bhullar (23941), Mrs Navdeep Parmar (23942), Mrs N Gayathri (23939)—wef 24 May 2009

Mrs Sweta Rawat (24308), Mrs T Misbah (24312)—wef 21 Dec 2009

## LGS BRANCH

Mrs M Mondal (24316)—wef 21 Dec 2009

## F(P) BRANCH

Mrs Namrita Chandi (24109)—wef 29 Jun 2009

Sqn Ldr to be Subs WG Cdr

## AE(M) BRANCH

Biswajit Dey (24839), Rao PVV (24838), U Sathyan (24855), KN Ramesh (24853), Aijaz Faiyaz (24858), Arun Prabhakaran (24840)—wef 22 Nov 2009

## AE(L) BRANCH

Ravi Shanker Yadav (24844), Gurushant Karki (24851), Ratnaker Deshmukh (24843), S Lamba (24845), Inderjit Singh Sehdev (24846), Rajnish Gautam (24842)—wef 22 Nov 2009

## ADM BRANCH

KB Thakur (24330), RK Sharma (24336), MC Sudan (24333), Tarini Rao Behera (24332), Singh K (24337), Mitra Lal Joshi (24331), V Rajagopal (24334), MK Nandi (24341), Baljit Singh (24340), KS Shinde (24339), GP Chaturvedi (24338), GK Kahol (24335)—wef 18 Jan 2010

## LGS BRANCH

Ramjee (24345), Rajendra Singh (24348)—wef 18 Jan 2010

## ACCTS BRANCH

IP Singh (24343), Ansar Ahmed (24344)—wef 18 Jan 2010

## EDN BRANCH

Sheikh Siddique (24351), DK Mukhopadhyay (24350), BS Yadav (24352)—wef 18 Jan 2010

## F(P) BRANCH

VG Gore (23524), N Mahajan (23530)—wef 17 Jun 2008

V Chaturvedi (23765), V Somasunder (23784)—wef 22 Nov 2009

(With Notional Seniority wef 16 Dec 2008)

P Chadha (23767)—wef 21 Jun 2009

(With Notional Seniority wef 16 Dec 2008)

SM Yunis (23781)—wef 07 May 2009

(With Notional Seniority wef 16 Dec 2008)

P Chillar (23785)—wef 02 Dec 2009

(With Notional Seniority wef 16 Dec 2008)

KV Sreenivas (23788)—wef 30 Jun 2009

(With Notional Seniority wef 16 Dec 2008)

## ADM BRANCH

AP Rajesh (23956), SR Biju (23959), A Sharma (23965), DS Negi (23969)—wef 28 Feb 2010

M Trikha (23971)—wef 10 Mar 2010

## AE(L) BRANCH

Preet Gurbrinder Singh (24705), N Sajeew (24694), PR Gupta (24696), Murugappa Guddad (24698), Krishnan Anantha Rajan (24697)—wef 23 May 2009

N VIJAY KUMAR  
Wg Commander  
Jt Director  
Personnel Offrs-3(D)

No. 737, dated 8th December 2010—President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

## INDIAN AIR FORCE

## FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

## F(P) BRANCH

M Singh (29241), PV Basetti (29242), SS Alve (29237), V Joshi (29238), K Singh (29239), P Bhatnagar (29240), N Choudhary (29236), A Godbole (29235), M Rana (29251), PR Abhilash (29252), KV Prakash (29175), R Kasana (29234), S Mehta (29206), A Singh (29207), S K Prasad (29189), R Parija (29190), J Yadav (29191), N Upadhyay (29192), M Md Hafeezulla (29204), A Sharma (29205), R J Irani (29244), A Trivedi (29245), A Verma (29248), SK Pandey (29250), P Singhal (29208), V Kumar (29210), S Dagar (29211), DK Sharma (29212), N Kajla (29176), R Basoya (29178), S Jasrotia (29179), S Singh (29180), P Nandagopan (29181), M Das (29215), A Yadav (29216), MK Gautam (29213), SK Dash (29214), GS Asish (29228), MP Londhe (29229), A Sharma (29217), A Pandey (29218), V Kumar (29219), APS Saini (29174), GPS Vasana (29182), V Chaturvedi (29221), K Mishra (29222), SG Limkar (29223), SK Senthil (29224), A Dogra (29225), R Poonia (29226), R Manu (29227), MS Sabharwal (29183), SN Pohare (29184), CS Ghormade (29185), P Bishnoi (29196), M Vyas (29197), Kunal (29198), M Dogra (29200), A Ajay Kumar (29201), PV Menon (29202), A Pareek (29203), RK Sharma (29220), PA Hariharan (29243), P Sharma (29193), S Singh (29194), RM Gopikrishnan (29195), K Sharma (29230), R Kumar (29231), S Pandey (29232), VH Reddy (29186), KS Rathore (29188), V Sharma (29209)—wef 15 Dec 2008

## F(P) BRANCH

SR Ganguly (29253)—wef 30 Dec 2008

V M MARDIKARS  
Wg Commander  
Jt Director  
Personnel Offrs-3(D)

No. 738, dated 08th December 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 30 Dec 2009 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt

Sandeep Rana (MS-15387L) (MR-08969H), AMC, 22 Sep 2006 with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2004 (this includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Anesthesiology which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Rupsing Parmar (MS-15117W) (MR-08971A), AMC, 16 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Prabhat Peeyush (MS-15333K) (MR-08972H), AMC, 22 Sep 2006 with seniority for pay and promotion from 22 Mar 2006 (this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Veena Kharayat (MS-15640F) (MR-08983P), AMC, 06 Sep 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Magesh Kumar (MS-15360N) (MR-08974N), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Warthe Ashok Bhimrao (MS-15437L) (MR-08977F), AMC, 22 Jan 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Navneet Anand (MS-15611M) (MR-08982P), AMC, 06 Sep 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Lt

Rishi Sharma (MS-14864P) (MR-08970X), AMC, 22 Sep 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 15 Apr 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Surg Lt

Rani Malik (MS-15550A) (MR-08973L/75929R), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Manish (MS-14895P) (MR-08967X/75863R), AMC, 05 Oct 2004 with seniority for pay and promotion from 05 Oct 2001 (this includes 36 months antedate for M.D (Anesthesia) which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 14 Jul 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 739, dated 09th December 2010—The President is pleased to make the following promotion :—

Smt A Sumita Kumari to be Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 25 Aug 2010 (F/N) pay band of Rs. 9,300—34,800/- and grade pay Rs. 4,600/-

Shri MP Maraskolhe to be Joint Director (Admn), Gp 'A' in DRDO with effect from 01 Sep 2010 (F/N) in the pay band of Rs.37,400—67,000/- and grade pay Rs. 8,700/-

VP SINGH  
Dy Director (Pers)

No. 740, dated 09th December 2010—The President is pleased to promote the following Scientists of HEMRL, Pune from their existing grade to the next higher grade in the same establishment with effect from 01 Jul 2010 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted & Pay Scale of Promoted Grade
Shri DK Kankane, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 37,400—67,000/- + 10,000/- + Special Pay 4,000/-
Shri GM Gore, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + 8,900/-
Dr RR Sanghavi, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + 8,900/-
Dr RV Singh, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + 8,900/-
Shri N Pandarinath Rao, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + 8,900/-
Shri Himanshu Shekhar, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + 8,900/-
Ms Hima Prasanth, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/-
Shri US Prasad, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/-
Shri KJ Thomas, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/-
Shri RR Soman, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-
Shri SG Avachat, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-
Shri Mukesh Kumar Jain, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-
Dr (Ms) VS Bhingarkar, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-
Shri Soujoy Debnath, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-

- Shri Ramesh Kurva, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-

Shri AK Vishwakarma, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-

Shri Sunil Jain, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-

Dr S Radhakrishnan, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/-

NARSINGH SAHU  
Joint Director (Pers)

No. 741, dated 09th December 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

Para 1 of Gazette Notifications in Part I, Section IV wrt Ministry of Defence published in the Gazette of India dated 03 May 1997, 30 Jan 1999 and 17 Jul 1999 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army are here by amended as under :—

For : "The undermentioned are granted permanent commission in the rank of 2/Lt wef 07 Dec 96 under the terms and conditions of SAI 1/S/94. They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotion from 10 Dec 94 under SAI 1/S/94 and are promoted to the rank of Lt wef 10 Dec 96."

Read : "The undermentioned are granted permanent commission in the rank of 2/Lt wef 07 Dec 96 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94. They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotion from 11 Dec 94 under SAI 1/S/94 and are promoted to the rank of Lt wef 11 Dec 96."

RAHUL SHARMA  
Lt Col  
AMS-8B